



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12—मई 18, 2007 (वैशाख 22, 1929)  
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12—MAY 18, 2007 (VAISAKHA 22, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2007

संख्या 222, दिनांक 12 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 87) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री अजय तिरकी को, 12.3.2007 (पूर्वाह्न) से, 18,400-22,400/- रु. के वेतनमान में उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 6.6.2009 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री वी. पी. वर्गीस को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 फरवरी, 2007 के का.ज्ञा. संख्या 4/8/2006-सी एस-1 की शर्तों के अधीन 28.2.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केंद्रीय सचिवालय सेवा के

चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, राईफल निर्माणी, ईशापुर, पश्चिम बंगाल के निर्माण-कार्य प्रबंधक श्री वीरेंद्र कुमार अधाना को 19.3.2007 (पूर्वाह्न) से 18.3.2010 तक 3 (तीन) वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संधिदा क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. देब  
अवर सचिव

संख्या 223, दिनांक 12 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, ग्रेड-1 के अवर सचिवों श्री मुकेश सिंघल एवं श्री आर.एस. परोच, को केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर 28.2.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाता है :-

1. तदर्थ प्रोत्रति उनको ग्रेड में निश्चित रूप से जारी रखने या स्थायी नियुक्ति किए जाने के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

2. तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में निर्धारित भर्ती के सामान्य माध्यमों के द्वारा स्थायी अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध हो जाने पर सहायक ग्रेड में पदावनत किया जा सकता है।

रमेश कुमार  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सेना डाक सेवा

अस्थाई कमीशन

संख्या 224, दिनांक 16 अप्रैल 2007--सेना डाक सेवा कोर के निम्नलिखित जूनियर कमीशन अधिकारियों/अधिपत्र अधिकारियों को सेना अनुदेश 29/85 के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से प्रभावी लेफ्टीनेन्ट के पद पर अस्थाई कमीशन (परिवीक्ष्यमान) प्रदान किया जाता है उनका (परिवीक्ष्यमान) अस्थाई कमीशन परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद संसृष्ट किया जाता है :-

कमीशन प्राप्ति तिथि

(क) जे सी 834442 एम नायब सूबेदार आर संजय (अब टी सी-31569 एच लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005
(ख) जे सी 834262 के सूबेदार आर ए जयसवाल (अब टी सी-31570एक्स लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005
(ग) जे सी 834295 पी सूबेदार जी वी वेहरा (अब टी सी-31571ए लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005
(घ) जे सी 834515 एन नायब सूबेदार चेतन आनन्द (अब टी सी-31572एच लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005
(ङ) जे सी 834528एल नायब सूबेदार जगदीप शेरान (अब टी सी-31573एल लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005
(च) जे सी 834513एच नायब सूबेदार एस मानिकनडन (अब टी सी-31574एन लेफ्टीनेन्ट)	04 जुलाई 2005

प्रदीप कुमार  
अपर सचिव

सं. 225, दिनांक 17 अप्रैल 2007--यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान मयंगलम्बम अमित कुमार (एमएस-14476एक्स), एएमसी,  
19 दिसम्बर 2002

कप्तान धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (एमएस-14502एन), एएमसी,  
28 फरवरी 2002

कप्तान मो. रासीद (एमएस-14583वाई), एएमसी, 15 मार्च 2003

कप्तान शर्मा अमीत मुंशी (एमएस-14590पी), एएमसी, 20 मार्च  
2003

कप्तान विनोद कुमार एस वी (एमएस-14889एफ), एएमसी,  
05 अक्टूबर 2004

कप्तान संजीव समयाल (एमएस-15077ए), एएमसी, 17 मई 2005

कप्तान अनुपम पारीक (एमएस-15112एक्स), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2005

कप्तान सतीश बार्कि (एमएस-15113ए), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2005

कप्तान मनोज एम जी (एमएस-15114एच), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2005

कप्तान सुमन व्यास (एमएस-15118वाई), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2005

कप्तान कमल कुमार (एमएस-15119एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर  
2005

कप्तान अद्वितीय सांगवान (एमएस-15121वाई), एएमसी,  
16 दिसम्बर 2005

कप्तान एन शंकर गणेश (एमएस-15132एल), एएमसी,  
16 दिसम्बर 2005

कप्तान जगदीपक गिल्ल (एमएस-15150एन), एएमसी,  
16 दिसम्बर 2005

कप्तान शैलजा चौधरी (एमएस-15151डब्ल्यू), एएमसी,  
16 दिसम्बर 2005

कप्तान प्रभू देसाय पदमिनी संदीप (एमएस-15156पी), एएमसी,  
16 दिसम्बर 2005

अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान राहुल जैन (एमएस-15154के), आयोग की तिथि, 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए 36 महीने पहले दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान मो. तबरेज आलम (एमएस-15133एन), आयोग की तिथि, 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन ऐन्साथियोलोजी के लिए 24 महीने पहले दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान तेली प्रभाकर तमन्ना (एमएस-14894एम) आयोग की तिथि, 05.10.2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05.10.2001 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल/स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडिसिन (पी एस एम) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान मधुकर हरीभाऊ कांबले (एमएस-14891वाई) आयोग की तिथि, 05.10.2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05.10.2001 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडिसिन के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान श्रीधर के (एमएस-14644एल) आयोग की तिथि, 10.02.2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10.02.2001 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन डी एल.ओ. (नेत्र रोग) के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान नरेन्द्र के झा (एमएस-14597वाई) आयोग की तिथि, 31.03.2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30.09.2002 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)

कप्तान नारायण विजया प्राहलाद (एम एस-14773एल) आयोग की तिथि 17.2.2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17-2-2001 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम एस (इ एन टी) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

लेफ्टि. के पद पर (परखपर)

लेफ्टि. सुधीर कुमार (एम एस-15092पी), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. मनोज कुमार (एम एस-15093एक्स), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. अनूप कुमार (एम एस-15095एच), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. वरूण जयंथ (एम एस-15096एल), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. सौरभ वशिष्ठ (एम एस-15097एन), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. ब्रजेश नारायण (एम एस-15098डब्ल्यू), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. कार्तिक कोहली (एम एस-15099वाई), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. नितिन नागपाल (एम एस-15100एच), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. उमा शंकर गुप्ता (एम एस-15101एल), ए एम सी 29 अक्टूबर 2005

लेफ्टि. विश्वेन्दु (एमएस-15268पी), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. सुदीप कुमार (एमएस-15269एक्स), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. अशिष बोंडिया (एमएस-15270एम), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. बिनित कुमार (एमएस-15271पी), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. सचिन चौरसिया (एमएस-15272एक्स), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. हिमांशु शर्मा (एमएस-15273ए), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. विकास कुमार (एमएस-15274एच), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. राजेश्वर भाटी (एमएस-15292एल), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. डिम्पल कुमारी (एमएस-15293एन), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. सोमया दर्शन सान्याल (एमएस-15294डब्ल्यू), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. अनुज अग्रवाल (एमएस-15295वाई), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. मनीषा रॉय (एमएस-15296एफ), एएमसी, 13 मार्च 2006

लेफ्टि. हिमांशु (एमएस-15297के), एएमसी, 13 मार्च 2006

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) अस्थायी कमीशन अधिकारियों को 07 अप्रैल 2006 से नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेवा

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि. के पद पर 07 अप्रैल 2006 से प्रभावी (परख पर)

सूबेदार भरत कुमार शर्मा (जेसी-693436एम अब एनटीएस-17526एच), 07 अप्रैल 2006

(वेतन के लिये ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2004 से प्रभावी)

सूबेदार अशोक कुमार शाहा (जेसी-693509एन अब एनटीएस-17527एल), 07 अप्रैल 2006

(वेतन के लिये ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2004 से प्रभावी)

हवलदार सुभाष राम (सं. 13982363के अब एनटीएस-17528एन), 07 अप्रैल 2006

हवलदार अविनाश पी भाले राव (सं. 13969976वाई अब एनटीएस-17529डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2006

हवलदार जयराजन ओ के (सं. 13960360डब्ल्यू अब एनटीएस-17530एल), 07 अप्रैल 2006

हवलदार रतिशान नायर एन (सं. 13978318ए अब एनटीएस-17531एन), 07 अप्रैल 2006

नायक जोन बेबी (सं. 13974229के अब एनटीएस-17532डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2006

नायक अवध जयदेव खाण्डे राव (सं. 13984131के अब एनटीएस-17533वाई), 07 अप्रैल 2006

नायक नागेन्द्र कुमार त्रिपाठी (सं. 13993847के अब एनटीएस-17534एफ), 07 अप्रैल 2006

नायक हर्षवर्धन (सं. 13991503एम अब एनटीएस-17535के), 07 अप्रैल 2006

नायक प्रसाद एम कुरूप (सं. 13992457पी अब एनटीएस-17536एम), 07 अप्रैल 2006

नायक सिजिमेन मोनयु (सं. 13997903पी अब एनटीएस-17537पी), 07 अप्रैल 2006

नायक अमर नते रायि (सं. 13998601पी अब एनटीएस-17538एक्स), 07 अप्रैल 2006

सिपाही अमित सिंह (सं. 13987845एच अब एनटीएस-17539ए), 07 अप्रैल 2006

सिपाही पीजी विनयगन (सं. 13991652ए अब एनटीएस-17540पी), 07 अप्रैल 2006

सिपाही अनूप विष्ट (सं. 13992024एक्स अब एनटीएस-17541एक्स), 07 अप्रैल 2006

सिपाही संतोष सी एच (सं. 13995293पी अब एनटीएस-17542ए), 07 अप्रैल 2006

सिपाही राम कृष्ण प्रताप सिंह सिसोदिया (सं. 13998900एन अब एनटीएस-17543एच), 07 अप्रैल 2006

राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) स्थायी कमीशन अधिकारियों को 07 अप्रैल 2006 से नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लैफ्टी. के पद पर 07 अप्रैल 2006 से प्रभावी (परख पर)

सूबेदार चमन सिंह शिशोदिया (जेसी-693739एफ अब एनटीएस-16734एल), 07 अप्रैल 2006

(वेतन के लिये ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2004 से प्रभावी)

✓ हवलदार मनोहर सिंह मेहरा (सं. 13965072एन अब एनटीएस-16735एन), 07 अप्रैल 2006

हवलदार राम पाल (सं. 13972566ए अब एनटीएस-16736डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2006

हवलदार एम संतोष कुमार (सं. 13978117एफ अब एनटीएस-16737वाई), 07 अप्रैल 2006

हवलदार हरदत्त सिंह कासवान (सं. 13972364वाई अब एनटीएस-16738एफ), 07 अप्रैल 2006

नायक महेश कुमार यादव (सं. 13990208एक्स अब एनटीएस-16740वाई), 07 अप्रैल 2006

नायक विनोद कुमार (सं. 13993576एक्स अब एनटीएस-16741एफ), 07 अप्रैल 2006

नायक शिव कुमार के (सं. 13981838डब्ल्यू अब एनटीएस-16742के), 07 अप्रैल 2006

नायक महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (सं. 13995915एल अब एनटीएस-16743एम), 07 अप्रैल 2006

सिपाही वाघ सुभाष चंद्रभान (सं. 13984276पी अब एनटीएस-16744पी), 07 अप्रैल 2006

सिपाही पारशु रामूलू पिल्लै (सं. 13988092एन अब एनटीएस-16745एक्स), 07 अप्रैल 2006

सिपाही कृष्णा राव दुबा (सं. 13990892एल अब एनटीएस-16746ए), 07 अप्रैल 2006

सिपाही भास्कर कुमार सिंह (सं. 13992203एक्स अब एनटीएस-16747एच), 07 अप्रैल 2006

सिपाही मुकेश कुमार (सं. 13993008एम अब एनटीएस-16748एल), 07 अप्रैल 2006

सिपाही चन्द्रशेकराय एन (सं. 13997538वाई अब एनटीएस-16749एन), 07 अप्रैल 2006

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टि. शिव नारायण पण्डा (एमएस-15175ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. प्रीति मिश्रा (एमएस-15184एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. रवि कुमार शर्मा (एमएस-15303एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. जे सी वरगीस (एमएस-15172एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. अपूर्व बाजपेयी (एमएस-15179डब्ल्यू/ए एफ-28401), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

फ्ला. लेफ्टि. संजय कुमार श्रीवास्तव (एमएस-15183वाई/एफ-28406), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

अनुदेश 14/79 द्वारा यथा शोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

#### नियमित सेवा

#### अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टि. अतुल कुमार सिंह (एमएस-15085वाई/ एफ-28382एच), आयोग की तिथि 25 जुलाई 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 जुलाई 2002 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है)।

फ्ला. लेफ्टि. राहुल सूद (एमएस-14886एन/एफ-27660), आयोग की तिथि 28 सितम्बर 2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2002 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता ओटो रेहनो-लरयानजोलोजी के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### अल्पकालीन कमीशन

#### (सेना चिकित्सा सेवा)

फ्ला. ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ्ला. ऑफिसर अर्पिता जैन (एमएस-15248एफ), एएमसी, 13 मार्च 2006

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

सहा. डीजीएफएमएस (पर्स)

-----

सं. 226, दिनांक 17 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

ले. के पद पर दिनांक 10 जून 2006 से

निम्नलिखित 118 नियमित पाठ्यक्रम (118 डाइरेक्ट इन्ट्री, 108 एनडीए तथा 85 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद

पर दिनांक 10 जून 2006 से स्थायी रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट इन्ट्री) सेना निर्देश 53/78 को विसेनि/एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एनडीए), सेना निर्देश 55/73 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

नाम, आईसी नम्बर एवं आर्म/सर्विस

आशीष सिंह मेहता, 67883एफ, इन्फैन्ट्री

सत्यदीप ढोंडा, 67884के, इंजिनियर

भवानी सिंह, 67885एम, एएडी

पवन कुमार मिश्रा, 67886पी, मैक

विनय यादव, 67887एक्स, इन्फैन्ट्री

अखिल गुप्ता, 67888ए, आर्टी

अतुल कुमार, 67889एच, आर्टी

संदीप कुमार, 67890एक्स, इन्फैन्ट्री

रवि राजन, 67891ए, आर्टी

कृष्ण कबीर, 67892एच, एओसी

सिद्धार्थ राव, 67893एल, इन्फैन्ट्री

विशाल प्रकाश, 67894एन, ईएमई

गुरप्रीत सिंह, 67895डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री

परीक्षित शर्मा, 67896वाई, इन्फैन्ट्री

बीपिन, 67897एफ, इन्फैन्ट्री

एस डी अशोक, 67898के, इन्फैन्ट्री

सुनिल कुमार तिवारी, 67899एम, एसी

जितेन्द्र नेहरा, 67900डब्ल्यू, एससी

देवेन्द्र नेगी, 67901वाई, इन्फैन्ट्री

समीर तलवार, 67902एफ, इन्फैन्ट्री

अभिमन्यु आजाद, 67903के, इंटर

मंजुल कफालतिया, 67904एम, इन्फैन्ट्री

रितेश कुमार, 67905पी, इन्फैन्ट्री

अदित्य सूद, 67906एक्स, एएडी

सौरभ कुमार मिश्रा, 67907ए, इन्फैन्ट्री

अमित देसवाल, 67908एच, आर्टी

सुभाष पाचर, 67909एल, इन्फैन्ट्री

रामकेश सिंह, 67910ए, एससी

मयंक प्रताप सिंह, 67911एच, इंटर

यशदीप बोदवडकर, 67912एल, एएडी

नवेन्दु कुमार, 67913एन, आर्टी  
 चरणप्रीत सिंह, 67914डब्ल्यू, सिगनल  
 वैभव अत्री, 67915वाई, एसी  
 पार्थसारथी खस्तगीर, 67916एफ, इन्फैन्ट्री  
 निशी कान्त श्रीवास्तव, 67917के, आर्टी  
 रणविजय कुमार, 67918एम, इन्फैन्ट्री  
 राजीव द्विवेदी, 67919पी, इन्फैन्ट्री  
 जावेद अहमद, 67920के, आर्टी  
 किरपाल सिंह, 67921एम, इन्फैन्ट्री  
 अपार बिष्ट, 67922पी, आर्टी  
 अश्वयम वयकेई, 67923एक्स, एओसी  
 जयदीप भट्टाचार्य, 67924ए, एएडी  
 राकेश मिश्रा, 67925एच, इंटर  
 अमन शर्मा, 67926एल, मैक  
 कपिल सारसवत, 67927एन, आर्टी  
 ज्ञानेन्द्र यादव, 67928डब्ल्यू, इंटर  
 दीप प्रधान, 67929वाई, इन्फैन्ट्री  
 सुनिल सुरेश पवार, 67930एन, इन्फैन्ट्री  
 अनुपम अशोक, 67931डब्ल्यू, इंजिनियर  
 औख नारायण, 67932वाई, आर्टी  
 माधव दुबे, 67933एफ, ईएमई  
 जे यू सत्यनारायण, 67934के, आर्टी  
 ध्रुव बाली, 67935एम, एसी  
 हर्षदीप के गेहलोत, 67936पी, इन्फैन्ट्री  
 अभिरुचि परिहार, 67937एक्स, एएडी  
 प्रमोद कुमार भक्ता, 67938ए, इन्फैन्ट्री  
 श्रीजेश तनवर, 67939एच, इन्फैन्ट्री  
 सुनिल कुमार शुक्ला, 67940एक्स, एएडी  
 विनय बुडि, 67941ए, एओसी  
 हिमांशु गोला, 67942एच, आर्टी  
 संदीप सिंह, 67943एल, इन्फैन्ट्री  
 संजीव कुमार साहु, 67945डब्ल्यू, ईएमई  
 अनिल कुमार यादव, 67946वाई, मैक  
 हिमांशु थापा, 67947एफ, सिगनल

निशान्त पाठक, 67948के, आर्टी  
 गगनदीप सिंह, 67949एम, इन्फैन्ट्री  
 अखिलेश पिल्लई, 67950एफ, आर्टी  
 अविनाश सिंह, 67951के, इन्फैन्ट्री  
 समीर नेगी, 67952एम, आर्टी  
 अलोक मेहता, 67953पी, इन्फैन्ट्री  
 अजय कुमार, 67954एक्स, इन्फैन्ट्री  
 पवन सिंह, 67955ए, इन्फैन्ट्री  
 रवि शर्मा, 67956एच, इन्फैन्ट्री  
 संदीप वर्मा, 67957एल, आर्टी  
 संदीप सिंह काजला, 67958एन, इंटर  
 के ए विशाख, 67959डब्ल्यू, आर्टी  
 अमित सूदन, 67960एल, एसी  
 राहुल ठाकुर, 67961एन, इन्फैन्ट्री  
 अंकुर अग्रवाल, 67962डब्ल्यू, एएडी  
 मयुर दत्ता, 67963वाई, सिगनल  
 राजीव रंजन मलिक, 67964एफ, एओसी  
 मधुर विध्वंस, 67965के, ईएमई  
 जौनी मलिक, 67966एम, इन्फैन्ट्री  
 ध्रुव अबरोल, 67967पी, मैक  
 सचिन रावत, 67968एक्स, इंजिनियर  
 सुरेन्द्र सिंह यादव, 67969ए, इन्फैन्ट्री  
 सोनम तोपके, 67970पी, इन्फैन्ट्री  
 रवि पंत, 67971एक्स, एओसी  
 रणविजय सिंह पठानिया, 67972ए, एसी  
 कुलदीप कुमार डबराल, 67973एच, इन्फैन्ट्री  
 निरज मेहता, 67974एल, इन्फैन्ट्री  
 हेमन्त राज आर, 67976डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 रवि शंकर कौशिक, 67977वाई, इंजिनियर  
 विशाल सिंह, 67978एफ, एसी  
 नवीन अहलावत, 67979के, इन्फैन्ट्री  
 सुनिल विमल, 67980वाई, आर्टी  
 विवेक सेठ, 67981एफ, इन्फैन्ट्री  
 पंकज बिष्ट, 67982के, एसी

रचक त्यागी, 67983एम, एओसी  
 पोतदार अभिषेक सतीश, 67984पी, इन्फैन्ट्री  
 सौरभ कुमार राय, 67985एक्स, इंजिनियर  
 पावलेनमोंग, 67986ए, इन्फैन्ट्री  
 विशाल गुरंग, 67987एच, इंजिनियर  
 कैलाश राणा, 67988एल, एएससी  
 सुशील कुमार, 67989एन, इन्फैन्ट्री  
 पुनित चौहान, 67990एच, इन्फैन्ट्री  
 पी जोहेब, 67991एल, मैक  
 अविनाश बालासाहिब मोगल, 67992एन, आर्टी  
 बालाकृष्णा पान्दुरंग पाटिल, 67993डब्ल्यू, आर्टी  
 रोहित जून, 67994वाई, एसी  
 रवि चौधरी, 67995एफ, एएडी  
 देवदत्त भाउसाहेब टेमकर, 67996के, इन्फैन्ट्री  
 शक्ति ब्रत रथ, 67997एम, एएडी  
 मृदुल तेवतिया, 67998पी, ईएमई  
 रेणुकराज नेसुर, 67999एक्स, एओसी  
 सन्नी घोष, 68000वाई, एसी  
 सहलाब मधुर, 68001एफ, आर्टी  
 सुधांशु सम्मुखल इक्का, 68002के, आर्टी  
 रणवीर सिंह, 68003एम, इन्फैन्ट्री  
 प्रीतीश गन्तायत, 68004पी, इंजिनियर  
 आशिश सौरभ शर्मा, 68005एक्स, इन्फैन्ट्री  
 अज्जागुट्टा नरेन्द्र रेड्डी, 68006ए, आर्टी  
 प्रतिक मिश्रा, 68007एच, एएससी  
 कुन्द मुरली मोहन रेड्डी, 68008एल, आर्टी  
 सुनिल सोनी, 68009एन, इन्फैन्ट्री  
 निखिल पाण्डेय, 68010एच, आर्टी  
 रोबिन के मथई, 68011एल, इन्फैन्ट्री  
 रोबिन मैथ्यू, 68012एन, एसी  
 दिपांकर शर्मा, 68013डब्ल्यू, एएडी  
 अभिषेक सिंह चरक, 68014वाई, इन्फैन्ट्री  
 अंबेकर अमेय लक्ष्मीकांत, 68015एफ, सिग्नल  
 जितेन्द्र सिंह मेहता, 68016के, आर्टी

चौधरी पुशकर विजय, 68017एम, इन्फैन्ट्री  
 निशान्त पाण्डेय, 68018पी, इन्फैन्ट्री  
 अजय सिंह, 68019एक्स, एसी  
 सुनिल बिष्ट, 68020एम, आर्टी  
 आशीष ध्यानी, 68021पी, इंजीनियर  
 विक्रान्त सिंह, 68022एक्स, एसी  
 विनित देवदास, 68023ए, इंजीनियर  
 रवि शुक्ला, 68024एच, एओसी  
 पाटिल अभिजीत भास्करराव, 68025एल, इन्फैन्ट्री  
 निर्मल उप्रेती, 68026एन, आर्टी  
 गणेश शंकर विद्यार्थी, 68027डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 गोंटला नागा वेंकट सत्य विजय, 68028वाई, एएडी  
 विवेक कुमार अहलावत, 68029एफ, मैक  
 ध्रुव राज सिरोही, 68030डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 मो. बहजाद उर रहमान, 68031वाई, एएडी  
 राजकुमार पिक्की सिंह, 68032एफ, इन्फैन्ट्री  
 प्रदीप सिंह, 68033के, एएससी  
 जनमीत सिंह सोढी, 68034एम, आर्टी  
 सौरभ चमोली, 68035पी, आर्टी  
 निलेश बिष्ट, 68036एक्स, इन्फैन्ट्री  
 पावनीकर अभिजीत अजय, 68037ए, आर्टी  
 राजेश भट्ट, 68038एच, सिग्नल  
 खेम सिंह रावत, 68039एल, आर्टी  
 पुनित, 68040ए, इन्फैन्ट्री  
 संकेत तिवारी, 68041एच, एओसी  
 अनुपम कौशिक, 68042एल, इन्फैन्ट्री  
 अमित कुमार सिंह, 68043एन, इन्फैन्ट्री  
 कवितीर्थ सनयाल, 68044डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 खोईनाइजन जॉन मैते, 68045वाई, इन्फैन्ट्री  
 अभिनव, 68046एफ, आर्टी  
 सी.जी.एल एन. रूकन्द कुमार, 68047के, आर्टी  
 कपिल यादव, 68048एम, एएससी  
 योगेन्द्र भारत जादव, 68049पी, इंटर  
 वरुण सिंह, 68050के, एएडी

चंचल बनर्जी, 68051एम, इंटर  
 साकेत नारायण उनियाल, 68052पी, आर्टी  
 अभिजीत कुमार सिंह, 68053एक्स, इन्फैन्ट्री  
 नितिश पाशी, 68054ए, एएससी  
 सानु कृष्णा, 68055एच, इन्फैन्ट्री  
 मारियो लारो, 68056एल, ईएमई  
 कुनाल साहनी, 68057एन, इन्फैन्ट्री  
 महेन्द्र सिंह झाड़ाड़िया, 68058डब्ल्यू, एओसी  
 विपिन कुमार राणा, 68059वाई, इन्फैन्ट्री  
 डी सन्तोष, 68060एन, इन्फैन्ट्री  
 अनुपम दीक्षित, 68061डब्ल्यू, सिग्नल  
 चेतन कुमार, 68062वाई, आर्टी  
 आशुतोष नोटियाल, 68063एफ, इन्फैन्ट्री  
 योगेश उपाध्याय, 68065एम, इन्फैन्ट्री  
 सुमित डबराल, 68066पी, इन्फैन्ट्री  
 गौरव कुमार सिंह, 68067एक्स, इन्फैन्ट्री  
 भजन लाल सैनी, 68068ए, एएडी  
 अशोक कुमार मोहन्ता, 68069एच, एसी  
 रोहित सहाय, 68070एक्स, ईएमई  
 फैलिव्स जोसेफ गेगरी, 68071ए, आर्टी  
 गौरव सिंह, 68072एच, इन्फैन्ट्री  
 शारिक उल्ला, 68073एल, एएमसी  
 गौरव उपाध्याय, 68074एन, आर्टी  
 संदीप कटोच, 68075डब्ल्यू, आर्टी  
 बिजेन्द्र सिंह राठौर, 68076वाई, एएडी  
 उल्लाश बडोनी, 68077एफ, इन्फैन्ट्री  
 राजविन्द्र सिंह, 68078के, सिग्नल  
 सौरभ सक्सेना, 68079एम, आर्टी  
 शंगलाकपम बिजोम कुमार शर्मा, 68080एफ, इन्फैन्ट्री  
 वी एस पाण्ड्या, 68081के, आर्टी  
 रविकान्त तिवारी, 68082एम, इंजीनियर  
 धीरज भारती, 68083पी, एएडी  
 प्रसून श्रीनत, 68084एक्स, एओसी  
 सम्पतकुमार ए पाटिल, 68085ए, इंजीनियर

चिराग पंवार, 68086एच, एसी  
 दीपक राज, 68087एल, आर्टी  
 नीरज जून, 68088एन, मैक  
 सिदार्थ सेखावत, 68089डब्ल्यू, इंजीनियर  
 पाण्डेय प्राग्नेश आनन्दकिशोर, 68090एल, एसी  
 अमित मोहन, 68091एन, एसी  
 अंशुमान सिंह चन्देल, 68092डब्ल्यू, आर्टी  
 विनित शर्मा, 68093वाई, इन्फैन्ट्री  
 भार्गव गजानन अभयंकर, 68094एफ, इन्फैन्ट्री  
 निलेश तिवारी, 68095के, इन्फैन्ट्री  
 राजदीप सिंह पठानिया, 68096एम, एओसी  
 सरीम कपिल, 68097पी, इन्फैन्ट्री  
 गुंजन पाठक, 68098एक्स, इन्फैन्ट्री  
 बोरलॉगकी बे, 68099ए, इन्फैन्ट्री  
 आनन्द बोरा, 68100के, इंटर  
 राजेन्द्र सिंह, 68101एम, इन्फैन्ट्री  
 नितिन शर्मा, 68102पी, इन्फैन्ट्री  
 प्रशान्त ठाकुर, 68103एक्स, एएडी  
 गोपाल सिंह, 68104ए, इंटर  
 सुक्रुत पटेल, 68105एच, आर्टी  
 वरुण राठोर, 68106एल, इंटर  
 कपिल एस असरा, 68107एन, आर्टी  
 रोहित जौहरी, 68108डब्ल्यू, एएडी  
 महावीर सिंह रावत, 68109वाई, इन्फैन्ट्री  
 अजित कुमार शर्मा, 68110एन, इन्फैन्ट्री  
 पुशकर कौशिक, 68111डब्ल्यू, इंजीनियर  
 रितविक पटजौशी, 68112वाई, आर्टी  
 शेखर अरोड़ा, 68113एफ, एएससी  
 पुनित सुशील, 68114के, एसी  
 निमित्त अग्रवाल, 68115एम, इन्फैन्ट्री  
 कुनाल कुमार, 68116पी, ईएमई  
 शसांक त्रिपाठी, 68117एक्स, इन्फैन्ट्री  
 पंकज कुमार ओझा, 68118ए, सिग्नल  
 अंकित बगवारी, 68119एच, इन्फैन्ट्री



विनय बरसानी, 68120एक्स, आर्टी	प्रतुल कुमार, 68154एल, इन्फैन्ट्री
विक्रम चौहान, 68121ए, इन्फैन्ट्री	आशिष रंजन, 68155एन, एओसी
यश आदित्य, 68122एच, मैकनाइज	पुनित कटारिया, 68156डब्ल्यू, आर्टी
विक्रम नारायण एच आर, 68123एल, आर्टी	राजू अंसारी, 68157वाई, आर्टी
सत्येन्द्र सिंह, 68124एन, इन्फैन्ट्री	विक्रम कुंडु, 68158एफ, एओसी
जितेन्द्र सिंह, 68125डब्ल्यू, इंटर	तरुण शर्मा, 68159के, सिग्नल
हेन्र प्रताप सिंह, 68126वाई, आर्टी	अजय नौटियाल, 68160वाई, एएडी
राहुल सिंह, 68127एफ, इन्फैन्ट्री	जी विजय राजन, 68161एफ, इन्फैन्ट्री
रणधीर कुमार यादव, 68128के, एओसी	आशीष श्रीवास्तव, 68162के, इन्फैन्ट्री
शुशान्त शर्मा, 68129एम, एसी	सुनील सिंह, 68163एम, इन्फैन्ट्री
अलोक कुमार सिंह, 68130एफ, ईएमई	अंशुमान नारायण प्रसाद, 68164पी, आर्टी
रघुविन्द्रा कुमार, 68131के, इन्फैन्ट्री	पियुष खेर, 68165एक्स, इंजीनियर
सुनील कुमार, 68132एम, इन्फैन्ट्री	जे अजय, 68166ए, इन्फैन्ट्री
विशाल शर्मा, 68133पी, आर्टी	रविकिरण पदमचन्द बलकीरी, 68167एच, मैकनाइज
मनोज गिरी, 68134एक्स, इन्फैन्ट्री	रिषी कौशिक, 68168एल, ईएमई
अमित कुमार सिंह परिहार, 68135ए, इन्फैन्ट्री	मधुर थापा, 68169एन, इन्फैन्ट्री
सौरभ गुप्ता, 68136एच, एएडी	कपिल वर्मा, 68170एच, एएडी
शंकर सिंह भंडारी, 68137एल, इन्फैन्ट्री	संतोष चंद रावत, 68171एल, इन्फैन्ट्री
विनोद कुमार शर्मा, 68138एन, इंजीनियर	बबलु मुखर्जी, 68172एन, आर्टी
हरशित छाबड़ा, 68139डब्ल्यू, मैकनाइज	श्रीकान्त जेठी, 68173डब्ल्यू, इंटर
सिंगराव विक्रमादित्य, 68140एल, इंजीनियर	उदय बंदानी, 68174वाई, इन्फैन्ट्री
गौरव मैनन, 68141एन, एओसी	सुदर्शन सिंह, 68176के, आर्टी
यशवर्धन सिंह, 68142डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री	देवेश दुबे, 68177एम, एएडी
एशवर्षा पान्डे, 68143वाई, इन्फैन्ट्री	विक्रान्त सिंह, 68178पी, एएससी
निशित कश्यप, 68144एफ, इन्फैन्ट्री	ओइनाम आकाश सिंह, 68179एक्स, इन्फैन्ट्री
अभिषेक श्विन, 68145के, इन्फैन्ट्री	प्रकाश भट्ट, 68180एम, आर्टी
अनुप सागर दास, 68146एम, इन्फैन्ट्री	रितेश कुमार पांडे, 68181पी, आर्टी
अरुण शर्मा, 68147पी, इंटर	दीपक दुबे, 68182एक्स, इन्फैन्ट्री
सार्थक कुमार मोहपात्रा, 68148एक्स, आर्टी	विक्रान्त पांडे, 68183ए, इन्फैन्ट्री
जसबीर सिंह, 68149ए, एएससी	विवेक रोतेला, 68184एच, एओसी
हर्ष चौधरी, 68150पी, एएडी	मधुसूदन भंडारी, 68185एल, इंटर
अंशुमान नारायण, 68151एक्स, आर्टी	सुशील चन्द्रा, 68186एन, ईएमई
सोमया रंजन प्रधान, 68152ए, आर्टी	विपिन नागर, 68187डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
अमित कुमार, 68153एच, इन्फैन्ट्री	एंटेनी परेश एम, 68188वाई, इन्फैन्ट्री

अमनदीप सिंह, 68189एफ, इंटर  
 सौमेन्द्र सैन, 68190डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री  
 शशांक, 68191वाई, एसी  
 अनुज हीर कुमार, 68192एफ, सिग्नल  
 इग्नेशियम राहुल बेन्जर, 68193के, इन्फैन्ट्री  
 चन्द्र सिंह एशवाल, 68194एम, इंजीनियर  
 अरविन्द, 68195पी, इन्फैन्ट्री  
 इन्द्रजीत घोष, 68196एक्स, आर्टी  
 विद्युत महतो, 68197ए, इंजीनियर  
 अखिल शर्मा, 68198एच, इन्फैन्ट्री  
 संदीप एस मेनन, 68199एल, आर्टी  
 अभिषेक शाही, 68200पी, एसी  
 एस वेंकटरमन, 68201एक्स, एओसी  
 मेहता पार्थ अरविन्दभाई, 68202ए, एएडी  
 जय सिंह, 68203एच, एएडी  
 संतोष कुमार राय, 68204एल, आर्टी  
 गगनदीप सिंह रंधावा, 68205एन, आर्टी  
 मनीताभ सरन, 68206डब्ल्यू, एसी  
 दीपक लक्ष्मण राव सरोद, 68207वाई, आर्टी  
 अमित उधव निकाम, 68208एफ, मैकनाइज  
 मोहनिस कुमार, 68209के, इन्फैन्ट्री  
 तेजस्वी सिंह राणा, 68210वाई, इंटर  
 अभिषेक मिश्रा, 68211एफ, आर्टी  
 राजीव सिंह, 68212के, इन्फैन्ट्री  
 आशुतोष श्रीवास्तव, 68213एम, एएससी  
 महेश अरज्याल, 68214पी, मैकनाइज  
 कनु शर्मा, 68215एक्स, आर्टी  
 नवनीत साहनी, 68216ए, आर्टी  
 भगवत महेश मुकुंड, 68217एच, आर्टी  
 के वरूण वर्मा, 68218एल, इन्फैन्ट्री  
 अनिरुध सिंह, 68219एन, एसी  
 निलादरी रोय, 68220एच, ईएमई  
 पियुष दत्त, 68221एल, एओसी  
 नंदन कुमार सिंह, 68222एन, इन्फैन्ट्री  
 जाधव दीगविजय सुरेश राव, 68223डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री

मनोज कुमार, 68224वाई, आर्टी  
 कुलदीप सिंह, 68225एफ, इन्फैन्ट्री  
 जवाहर सिंह, 68226के, इन्फैन्ट्री  
 नायक राजस सुधीर, 68227एम, इन्फैन्ट्री  
 राना सुन्दीप प्रेमचंद, 68228पी, इंटर  
 नीरज कुमार सिंह, 68229एक्स, इन्फैन्ट्री  
 एम सी आशिष चीनप्पा, 68230एम, इंजीनियर्स  
 राहुल मिश्रा, 68231पी, आर्टी  
 आई आनन्द, 68232एक्स, एसी  
 अर्जुन सिंह, 68233ए, इन्फैन्ट्री  
 सुभम रंजन श्रीवास्तव, 68234एच, सिग्नल्स  
 मुकुल बंसल, 68235एल, एएडी  
 अरूण कुमार, 68236एन, आर्टी  
 विपिन चन्द्र पान्डे, 68237डब्ल्यू, एओ सी  
 विनय वी नाडकरणी, 68238वाई, एसी  
 क्षितिज भारद्वाज, 68239एफ, इन्फैन्ट्री  
 वैभव गुप्ता, 68240डब्ल्यू, आर्टी  
 विजय नंद, 68241वाई, आर्टी  
 आशिष ठाकुर, 68242एफ, इन्फैन्ट्री  
 अंजनी झा, 68243के, आर्टी  
 उमा शंकर डंडरियाल, 68244एम, ए ओ सी  
 केदार सिंह बिष्ट, 68245पी, मैकनाइज  
 सी दीपक, 68246एक्स, आर्टी  
 खान अनवर नशीर ए खान, 68247ए, इंटर  
 प्रशान्त बलोनी, 68248एच, एएससी  
 असीम सूद, 68249एल, आर्टी  
 किसान बल पी, 68250ए, इन्फैन्ट्री  
 कुन्दन सिंह, 68251एच, इन्फैन्ट्री  
 विकास कुमार सिंह, 68252एल, इन्फैन्ट्री  
 नितिन टी एम, 68253एन, एसी  
 अरनप चौधरी, 68254डब्ल्यू, आर्टी  
 हिमांशु सेखर पॉल, 68255वाई, इन्फैन्ट्री  
 बालेन्दुमौलि कु प्रसाद, 68256एफ, एएडी  
 रोटीथोर अमित गणेश, 68257के, इंजीनियर्स  
 सिमरन शर्मा, 68258एम, ईएमई

प्रिंस रोहित, 68259पी, इन्फैन्ट्री  
 नीरज शर्मा, 68260के, एएससी  
 निखिल शर्मा, 68261एम, एएडी  
 संजीत भट्ट, 68262पी, आर्टी  
 संतोश प्रकाश जगताप, 68263एक्स, सिग्नल्स  
 क्षीरसागर मयूर मकरंद, 68264ए, एसी  
 लक्ष्मण सिंह राणा, 68265एच, सिग्नल्स  
 मनीष चतुर्वेदी, 68266एल, आर्टी  
 वारिस प्रताप सिंह, 68267एन, इन्फैन्ट्री  
 अभिशेक ककरेती, 68268डब्ल्यू, आर्टी  
 अरूण कुमार राणा, 68269वाई, इन्फैन्ट्री  
 सम्बीत दास, 68270एन, इंटर  
 कपिल वर्मा, 68271डब्ल्यू, इंटर  
 विरेन्द्र सिंह, 68272वाई, एएडी  
 जशवंत सिंह सोलंकी, 68273एफ, इन्फैन्ट्री  
 गौरव पाठक, 68274के, इन्फैन्ट्री  
 नवदीप सिंह, 68275एम, आर्टी  
 अंकुर प्रताप, 68276पी, इन्फैन्ट्री  
 अक्षय जोशी, 68277एक्स, एओसी  
 कोस्तुभ त्यागी, 68278ए, आर्टी  
 मानव खूल्लर, 68279एच, एसी  
 धर्मेन्द्र बहादुर सिंह, 68280एक्स, इन्फैन्ट्री  
 प्रतुष मिश्रा, 68281ए, इन्फैन्ट्री  
 अंकुर शर्मा, 68282एच, एएससी  
 सुमित कुमार पोरेल, 68283एल, आर्टी  
 सोमेन्द्र डे, 68284एन, आर्टी  
 सुबेग सिंह ढिंडसा, 68285डब्ल्यू, ईएमई  
 भावेश धनकड, 68286वाई, आर्टी  
 के दिग्गविजय सिंह, 68287एफ, एएडी  
 मुकेश पंवार, 68288के, इन्फैन्ट्री  
 शक्ति सिंह राठौर, 68289एम, इंटर  
 अलोक कुमार, 68290एफ, आर्टी  
 अभिनव बोरा, 68291के, मैकनाइज

## थल सेना विभाग

सं. 227, दिनांक 13 अप्रैल 2007—राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व  
 जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :—

## नियमित सेना

## रक्षा तथा सुरक्षा कोर

## सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर भाग सिंह (जेसी-176411एफ), पहले महार रेजीमेंट,  
 07 जनवरी 2006

## सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-578093पी), पहले जैक राईफल्स,  
 07 जनवरी 2006

सूबेदार गुरमेज सिंह (जेसी-578512एफ), पहले जैक राईफल्स,  
 07 जनवरी 2006

सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-528443ए), पहले गढ़वाल राईफल्स,  
 08 अप्रैल 2006

सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-538460एन), पहले कुमाऊँ रेजीमेंट,  
 08 अप्रैल 2006

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार बलप सिंह (जेसी-528487एक्स), पहले गढ़वाल  
 राईफल्स, 07 जनवरी 2006

नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-579000एफ), पहले जैक  
 राईफल्स, 07 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मथरा दास रैना (जेसी-579260एम), पहले जैक  
 राईफल्स, 08 जनवरी 2006

नायब सूबेदार दिलबारा सिंह (जेसी-508306ए), पहले सिख रेजीमेंट,  
 08 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-518897ए), पहले डोगरा रेजीमेंट,  
 10 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जगन्नाथ पटनायक (जेसी-558039ए), पहले बिहार  
 रेजीमेंट, 08 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार देव राज (जेसी-578872एक्स), पहले जैक राईफल्स,  
 08 अप्रैल 2006

## सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर श्याम फुल (जेसी-204095एम), पहले जाट रेजीमेंट,  
 09 अप्रैल 2006

## सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-164511ए), पहले राज राईफल्स,  
 08 जनवरी 2006

सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-428498पी), पहले पंजाब रेजीमेंट,  
 08 अप्रैल 2006

चन्द्र शेखर  
 ले. कर्नल  
 ए एम एस-8बी

सूबेदार मदन राम शर्मा (जेसी-201177के), पहले जैक लाईट इन्फैन्ट्री,  
08 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द आजाद (जेसी-518547एन), पहले डोगरा  
रेजीमेंट, 09 अप्रैल 2006

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

थल सेन विभाग

सं. 228, दिनांक 12 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार लोखंडे समभाजी भीमराऊ (सं. 1072578पी अब  
जेसी-241920डब्ल्यू), 14 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार घड राम (सं. 1074657एच अब जेसी-241952वाई), 26  
नवम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार मिलाप चन्द (सं. 1074836एच अब जेसी-241953एफ),  
26 नवम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार रवीन्द्र सिंह (सं. 1077146के अब जेसी-241959एच), 06  
दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार विद्या सागर (सं. 1075000एक्स अब जेसी-241962एच),  
01 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार अमी लाल जाट (सं. 1078400पी अब जेसी-241974एक्स),  
06 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार सुभाष सिंह (सं. 1078690एक्स अब जेसी-241975ए),  
20 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार देव राज (सं. 1074096वाई अब जेसी-241990पी),  
15 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार बीर सिंह (सं. 1075687एम अब जेसी-241991एक्स),  
12 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार नारायण चन्द्र घोष (सं. 1071873एल अब जेसी-241992ए),  
27 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार कतूरू पलसूधाकर (सं. 1068147एल अब  
जेसी-241993एच), 19 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार येलम जनार्धन राऊ (सं. 1073180एम अब  
जेसी-241994एल), 29 नवम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार करना राम जाखड (सं. 1075240पी अब जेसी-241995एन),  
15 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार लक्ष्मी कान्त गोगई (सं. 1075962एफ अब  
जेसी-241996डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार मदनन् पिल्लै बी (सं. 1075432एम अब  
जेसी-241997वाई), 26 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 1073667ए अब जेसी-241998एफ),  
29 नवम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार प्रताप सिंह राना (सं. 1077437के अब जेसी-242000एल),  
22 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार राम मेहर (सं. 1076385एम अब जेसी-242002डब्ल्यू),  
22 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार आनन्द राजू कोडे (सं. 1070167एक्स अब  
जेसी-242004एफ), 15 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार बिजोय कुमार बौराह (सं. 1075955एल अब  
जेसी-242005के), 09 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार सूरम चन्द (सं. 1074838एन अब जेसी-242006एम),  
15 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार नन्देश्वर सिंह (सं. 1072552ए अब जेसी-242007पी),  
27 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार खुडे राजा राम (सं. 1073132एम अब जेसी-242008एक्स),  
27 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार करुणा कान्ता डेका (सं. 1073165एक्स अब  
जेसी-242009ए), 27 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार मनीराज सिंह (सं. 1079266एफ अब जेसी-242014एल),  
19 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार सुरेश घिसिंग (सं. 1076223एफ अब जेसी-242016डब्ल्यू),  
14 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार सतबीर सिंह बेनीवाल (सं. 1076148एच अब  
जेसी-242018एफ), 15 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार राजवीर सिंह (सं. 1074571के अब जेसी-242019के),  
12 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार राम लाल (सं. 1077954एफ अब जेसी-242001एन),  
16 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार आर थोथापुरी नायडू (सं. 1071749के अब जेसी-  
241878एच), 01 सितम्बर 2006

दफादार ज्ञान भास्कर सरमा (सं. 1073110एन अब जेसी-  
241879एल), 01 सितम्बर 2006

दफादार रबीन्द्र कुमार मोहन्ती (सं. 1073055एच अब  
जेसी-241986एम), 02 जनवरी 2007\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार मानवेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 1081825वाई अब जेसी-  
241987पी), 28 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार सुखविन्दर सिंह (सं. 15466516एच अब जेसी-241999के),  
15 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार गोपाल लाल शर्मा (सं. 1073815ए अब जेसी-242003वाई),  
28 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार काला राम (सं. 1075846वाई अब जेसी-242010पी), 05  
जनवरी 2007\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार सुखविन्दर राज (सं. 1075845डब्ल्यू अब  
जेसी-242011एक्स), 05 जनवरी 2007\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार रामेश्वर लाल जाट (सं. 1074897ए अब जेसी-242012ए),  
15 दिसम्बर 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार राम पाल (सं. 1078431पी अब जेसी-242015एन),  
28 दिसम्बर 2006 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार शिव लाल (सं. 1075004एन अब जेसी-242021एफ), 01  
जनवरी 2007

दफादार ओ प्रियो धोजा सिंहा (सं. 1073414एल अब  
जेसी-242028एल), 01 जनवरी 2007

जोस थोमस  
अवर सचिव

सं. 229, दिनांक 13 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मनोहरन चकियार कन्डि (जेसी-184943डब्ल्यू), 01 दिसम्बर  
2006

सूबेदार के पी चन्द्रा शेखरन नायर (जेसी-126384एम), 01 जनवरी  
2007

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सोनी (जेसी-166605डब्ल्यू), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार बीर सिंह डोगरा (जेसी-578879एफ), 01 सितम्बर  
2006

नायब सूबेदार रघुनाथ, एस एम (जेसी-226166एच), 01 सितम्बर  
2006

नायब सूबेदार श्याम सिंह राठौर (जेसी-840961एल), 01 नवम्बर  
2006

नायब सूबेदार कन्नापन ए (जेसी-168514एल), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-236374एल), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार राज नारायन सिंह (जेसी-558372वाई), 01 दिसम्बर  
2006

नायब सूबेदार हतम खान (जेसी-588012एक्स), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-142146के), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार मोहन चन्द्रा नाथ (जेसी-840977डब्ल्यू), 01 जनवरी  
2007

नायब सूबेदार थन्काचन डी (जेसी-840983के), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार मनिका बक्किया नाथन (जेसी-840984के), 01 जनवरी  
2007

नायब सूबेदार दुर्गामान धारती (जेसी-841018एम), 01 जनवरी  
2007

नायब सूबेदार लछमन दास (जेसी-841019पी), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार बेयन्त सिंह (जेसी-841020के), 01 जनवरी 2007

रिमाउन्ट व पशुचिकित्सा कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफेदार (क्लर्क) राजेन्द्र नाथ पाण्डे (सं. 7239259एक्स अब जेसी-  
797391के), 01 मई 2006

दफेदार (ड्रेसर) मोहिन्दर सिंह (सं. 7239367एफ अब  
जेसी-797392एम), 01 मई 2006

दफेदार (ड्रेसर) राम सेवक (सं. 7239388एक्स अब  
जेसी-797393पी), 01 मई 2006

दफेदार (ड्रेसर) विश्व नाथ जेना (सं. 7239270डब्ल्यू अब  
जेसी-797394एक्स), 01 मई 2006

दफेदार (ड्रेसर) देव नारायण ठाकुर (सं. 7239347एम अब  
जेसी-797395ए), 01 मई 2006

दफेदार (ड्रेसर) कल्याण सिंह (सं. 7239434एफ अब  
जेसी-797396एच), 01 जून 2006

दफेदार (ड्रेसर) उपेन्द्र नाथ चौबे (सं. 7239435के अब  
जेसी-797397एल), 01 जून 2006

दफेदार (एडीटी) विजय कुमार एन (सं. 7239155डब्ल्यू अब  
जेसी-797398एन), 01 अगस्त 2006

दफेदार (एडीटी) राम शंकर (सं. 7239215ए अब  
जेसी-797399डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

दफेदार (एडीटी) रोहतास (सं. 7239229ए अब जेसी-797400ए),  
01 सितम्बर 2006

दफेदार (ड्रेसर) भास्कर बंसी खरात (सं. 7239422एम अब  
जेसी-797401एच), 01 अक्टूबर 2006

दफेदार (ड्रेसर) राम प्रसाद (सं. 7239379डब्ल्यू अब  
जेसी-797402एल), 01 अक्टूबर 2006

दफेदार (फैरियर) रघुबिर सिंह (सं. 7238852के अब  
जेसी-797403एन), 01 अक्टूबर 2006

दफेदार (राईडर) होशियार सिंह (सं. 7239876ए अब  
जेसी-797404डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006 \*

\*पहले के दिनांक से प्रवर्ता का क्रम दिया गया।

दफेदार (ड्रेसर) जय श्री पाल (सं. 7239400एन अब  
जेसी-797405वाई), 01 जून 2006

दफेदार (फैरियर) मोहिंदर सिंह (सं. 7238868पी अब  
जेसी-797406एफ), 01 दिसम्बर 2006

दफेदार (एडीटी) त्रिनाथ भाई (सं. 7238752वाई अब जेसी-797407के), 01 दिसम्बर 2006

दफेदार (एडीटी) सोमेश्वर बोरा (सं. 7239312एक्स अब जेसी-797408एम), 01 जनवरी 2007

दफेदार (एडीटी) विदेश्वरी प्रसाद (सं. 7239122एल अब जेसी-797409पी), 01 जनवरी 2007

दफेदार (राईडर) राज पाल सिंह (सं. 7240715के अब जेसी-797410के), 31 अक्तूबर 2005/01 नवम्बर 2005\*

\*पहले के दिनांक से प्रवृत्ता का क्रम दिया गया।

दफेदार (ड्रेसर) मुसाफिर राम (सं. 7238869वाई अब जेसी-797411एम), 01 जनवरी 2007

दफेदार (ड्रेसर) रामा शंकर यादव (सं. 7238903एम अब जेसी-797412पी), 01 फरवरी 2007

दफेदार (ड्रेसर) सर्वेश कुमार (सं. 7239299वाई अब जेसी-797413एक्स), 01 फरवरी 2007

दफेदार (ड्रेसर) आर अरोक्य स्वामी (सं. 7239429डब्ल्यू अब जेसी-797414ए), 01 फरवरी 2007

दफेदार (एडीटी) सीता राम सोनी (सं. 7239204एन अब जेसी-797415एच), 04 फरवरी 2007

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

सं. 230, दिनांक 13 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल (टीएस) के रैंक में

(वी-335एक्स) लेफ्टि कर्नल सुभाष चंद, आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004

पी रामा शास्त्री  
अवर सचिव

सं. 231 दिनांक 17 अप्रैल 2007.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ले. कर्नल/कर्नल (वी एस) से कर्नल (चयन) पद पर

डी एस स्वरूप (एम आर-4703वाई), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.12.05

ए पी गुप्ता (एम आर-4529एक्स), 17.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.12.05

इन्दर मोहन (एम आर-5945एन), 27.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.12.05

एस के वोहरा (एम आर-4531पी), 06.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.12.05

आर जे प्रसाद (एम आर-4535एल), 11.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.12.05

ए जी आर महेन्द्राकर (एम आर-4537डब्ल्यू), 14.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 08.12.05

अशोक सिंह(एम आर-3960के), 15.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 11.12.05

जी के प्रसाद (एम आर-4425डब्ल्यू), 18.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.12.05

एस डी पाठक (एम आर-3981ए), 18.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.12.05

वी के श्रीवास्तवा (एम आर-4186एम), 20.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 14.12.05

देवेन्द्र स्वरूप (एम आर-4348वाई), 02.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 21.12.05

एस पी राय (एम आर-5353के), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.12.05

के एन त्रिपाठी (एम आर-5851डब्ल्यू), 29.09.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.12.05

के बी बलिगा (एम आर-4767के), 12.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.12.05

पी प्रस्टी (एम आर-4768एम), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 24.12.05

आर के मुखर्जी (एम आर-4951पी), 24.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.12.05

आर एस वसन्तकुमार (एम आर-5437एक्स), 23.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.12.05

विनय लाल (एम आर-4208ए), 14.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 29.12.05

विनोद गर्ग (एम आर-4953ए), 28.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 31.12.05

जे आर जोशी (एम आर-5172वाई), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.01.06

टी वी एस पी मूर्ती (एम आर-4347के), 24.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.01.06

जी डी भिडे (एम आर-4876डब्ल्यू), 03.01.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 03.01.06

टी एस एहलूवालिया (एम आर-4954एच), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.01.06

रैमंड राज (एम आर-4956एन), 28.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.01.06

एच एस मिन्हास (एम आर-5097ए), 13.11.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 05.01.06

एच सी पाठक (एम आर-4803के), 14.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.01.06

ए के धर (एम आर-4808एच), 22.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.01.06

श्रीमति मुक्ति शर्मा (एम आर-5788एम), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 08.01.06

हिमाद्रि बल (एम आर-5109के), 15.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 08.01.06

टी के साहा (एम आर-5598ए), 18.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.01.06

डी के जैन (एम आर-5367के), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.01.06

वी के सिन्हा (एम आर-4598एन), 22.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.01.06

पी एस भाटिया (एम आर-5100पी), 20.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.01.06

ए एस कश्यप (एम आर-4257एच), 25.09.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 14.01.06

यू के शर्मा (एम आर-4262एन), 02.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 14.01.06

सुधीर राय (एम आर-4265एफ), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 14.01.06

ए के शर्मा (एम आर-4267एम), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 15.01.06

एस राजागोपालन (एम आर-4269एक्स), 10.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 15.01.06

ए बी खरे (एम आर-4272एक्स), 29.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 17.01.06

डी बहादुर (एम आर-4274एच), 08.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 17.01.06

आर के एस यादव (एम आर-4275एल), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 18.01.06

आर बी देओसकर (एम आर-4285पी), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 21.01.06

आर अरूनाचलम (एम आर-4958वाई), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.01.06

टी के सोम (एम आर-5351वाई), 24.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.01.06

एस पी सिंह (एम आर-5824एम), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 23.01.06

एस भार्गवा (एम आर-5463वाई), 26.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 23.01.06

बी आनन्द (एम आर-5104एल), 28.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 23.01.06

जी बी पथिआरी (एम आर-5494वाई), 04.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 24.01.06

पवनजीत सिंह (एम आर-5682ए), 18.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 24.01.06

आर एस सैनी (एम आर-6121एक्स), 20.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.01.06

ए आर मैटी (एम आर-5177एक्स), 20.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 27.01.06

आर हरांगले (एम आर-5599एच), 20.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 27.01.06

डी एस भकुनि (एम आर-4758एच), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 28.01.06

डी रामामूर्ति (एम आर-5646पी), 22.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 29.01.06

पी एस पोखरिया (एम आर-5234एन), 08.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 29.01.06

जे के बनर्जी (एम आर-4676ए), 21.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.02.06

एम आर पन्त (एम आर-4801वाई), 26.10.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 31.01.06

ए बनर्जी (एम आर-4428के), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.02.06

एस एस गिल (एम आर-4429एम), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.02.06

एस चटर्जी (एम आर-5249डब्ल्यू), 18.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 18.02.06

आर पी सिंह (एम आर-5350डब्ल्यू), 08.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 18.02.06



आर के शर्मा (एम आर-5435एम), 01.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 18.02.06

के एस राना (एम आर-5445डब्ल्यू), 17.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 22.02.06

एस एन मोहंती (एम आर-5238के), 18.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 23.02.06

डब्ल्यूवीबीएस रामालिंगम (एम आर-5239वाई), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 24.02.06

यू बी मिश्रा (एम आर-5357ए), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.02.06

ए के पिथावा (एम आर-5680पी), 18.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.02.06

एल सी पाण्डे (एम आर-5954पी), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 27.02.06

जे के एस परिहार (एम आर-5441ए), 14.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 27.02.06

बी वी नरेश (एम आर-7131एन), 27.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 28.02.06

पी कुमार (एम आर-5087डब्ल्यू), 16.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 28.02.06

एस सिंह (एम आर-5648ए), 20.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.03.06

ए के तिवारी (एम आर-4562पी), 29.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.03.06

सुनीता कक्कर (एम आर-4566एल), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 03.03.06

जी गांगुली (एम आर-4569वाई), 22.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 03.03.06

ए के सेठ (एम आर-4575एम), 24.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 03.03.06

ए के हुडा (एम आर-4576पी), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.03.06

आर एन शुक्ला (एम आर-4577एक्स), 31.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.03.06

ए पी राधाकृष्णन (एम आर-4580एक्स), 20.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.03.06

निखिल कुमार (एम आर-4583एल), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.03.06

रोहित कुमार (एम आर-4590एफ), 12.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.03.06

ए एस रंधावा (एम आर-4591के), 14.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 07.03.06

के नारायनन (एम आर-5108एफ), 10.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 09.03.06

एन भार्गवा (एम आर-4773एक्स), 17.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.03.06

विनय बढेरा (एम आर-5347डब्ल्यू), 27.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.03.06

बी सी त्रिवेदी (एम आर-5457एल), 28.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.03.06

एस के महापात्रा (एम आर-5355पी), 15.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.03.06

आर नांगिया (एम आर-4805पी), 22.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 10.03.06

विनोद राघवा (एम आर-5858ए), 18.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 11.03.06

एस मिसरा (एम आर-4870पी), 23.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 11.03.06

पी के लहरी (एम आर-4882के), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.03.06

मिसेज वी दत्ता (एम आर-5467पी), 16.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.03.06

ए पी एस बावा (एम आर-4666डब्ल्यू), 19.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.03.06

मिसेज एन चटर्जी (एम आर-5955एक्स), 23.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

ए के शर्मा (एम आर-4927वाई), 01.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

एस मोजूमदार (एम आर-5958एल), 20.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 12.03.06

अचल कुमार (एम आर-6116एम), 20.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

एस बंधोपाध्याय (एम आर-4980के), 24.03.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

एम के सैकिया (एम आर-5120एच), 01.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

आई बी सिंह (एम आर-5865डब्ल्यू), 25.04.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

एस एम गर्ग (एम आर-5802एन), 09.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 13.03.06

एम एस प्रकाश (एम आर-4807ए), 01.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 17.04.06

एस सी करन (एम आर-5455ए), 01.05.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 27.04.06

आर के श्रीवास्तवा (एम आर-5808पी), 01.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 29.04.06

आर सी दास (एम आर-5452एम), 01.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.05.06

डी के श्रीवास्तवा (एम आर-5477वाई), 01.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.05.06

ए बाजपेयी (एम आर-4812एल), 16.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.05.06

ज्ञान चन्द (एम आर-5473एच), 21.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 05.05.06

एन एस विलखू (एम आर-5003एक्स), 01.06.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06.05.06

डी के खरे (एम आर-6178एम), 11.07.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.06.06

एच कुमार (एम आर-5432वाई), 04.09.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.06.06

जे डी मुखर्जी (एम आर-4885एक्स), 01.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 21.06.06

मिसेज आर लखटकिया (एम आर-4721एफ), 01.08.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 23.06.06

एस कपूर (एम आर-4725एक्स), 01.10.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 25.06.06

आर दत्ता (एम आर-4726ए), 01.10.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 26.06.06

बी के लखटकिया (एम आर-4730एच), 01.10.06

एन लाम्बा (एम आर-4731एल), 01.10.06

एस एम सुदुम्ब्रेकर (एम आर-4732एन), 01.10.06

ए ए गर्ग (एम आर-4736के), 01.10.06

एस कटोच (एम आर-4739एक्स), 31.10.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 02.10.06

एन नथानी (एम आर-4745एल), 02.11.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 04.10.06

आर एस सरकार (एम आर-4747डब्ल्यू), 30.10.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 05.10.06

एस डी मुलगुंद (एम आर-4756एक्स), 24.11.06 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 01.11.06

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या एवं पदोन्नति की तिथि

लेफ्टि कर्नल (टीएस) अब्दुल गफुर खाँ (एनटीआर-16482के), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) कुलदेव (एनटीआर-16439एच), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) एस पिल्लै जी (एनटीआर-16538एन), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) डी सी जोशी (एनटीआर-16466एम), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) गुरुचरना सिंह (एनटीआर-16489एन), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) कुलभूषण सिंह (एनटीआर-16491एल), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) के एस शेखावत (एनटीआर-16493डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) रामास्वामी वेलीजगिरी (एनटीआर-16588डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) त्रिलोचन दास (एनटीआर-16544वाई), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) भजन सिंह (एनटीआर-16610डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) एम टी राजु (एनटीआर-16540एच), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) मदन लाल (एनटीआर-16545एफ), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) राम कुमार (एनटीआर-16682ए), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) सुखदेव सिंह मोरे (एनटीआर-16547एम), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) धरमपाल ओलो (एनटीआर-16546के), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) आर डी एस बुरनिया (एनटीआर-16611वाई), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि कर्नल (टीएस) रवि नेगी (एनटीआर-16563के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर सुरेश चन्द्र कौशल (एनटीआर-16541एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर दिनेश चन्द्रा सिंह नेगी (एनटीआर-16561वाई), 16 दिसम्बर 2004

मेजर जे एल शर्मा (एनटीआर-16562एफ), 16 दिसम्बर 2004

मेजर पी एस मनहास (एनटीआर-16619एल), 16 दिसम्बर 2004

मेजर एम के बाल (एनटीआर-16582पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर कमल सिंह (एनटीआर-16602एक्स), 16 दिसम्बर 2004

मेजर बी बिहारी (एनटीआर-16511एन), 16 दिसम्बर 2004

मेजर राघवेन्द्रा मिश्रा (एनटीआर-16633एक्स), 24 जुलाई 2005

कप्तान से मेजर

कप्तान गुकाशंकर (एनटीआर-16681एक्स), 11 अप्रैल 2006

लेफ्टि. से कप्तान

लेफ्टि. गुकाशंकर (एनटीआर-16681एक्स), 16 दिसम्बर 2004

-----

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एएमसी/एसएससी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन के पद पर

लेफ्टि. सुमित कुमार अग्रवाल (एमएस-14922एन), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. विनोद कुमार साहू (एमएस-14930एम), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. इन्द्र प्रकाश दूबे (एमएस-14935एल), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. पुनीत दीवान (एमएस-14943के), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. नेहा गौयल (एमएस-14944एम), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. अंकुर शर्मा (एमएस-14945पी), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. जागृति वर्मा (एमएस-14946एक्स), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. कमलप्रीत सिंह (एमएस-14947ए), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. प्रमोद सोलंकी (एमएस-14942एफ), 30 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. विनस देशवाल (एमएस-14731वाई), 30 दिसम्बर 2004

लेफ्टि. अजय कुमार ठाकुर (एमएस-14739एल), 30 दिसम्बर 2004

लेफ्टि. दीप्ती डिल्लों (एमएस-14733के), 31 दिसम्बर 2004

लेफ्टि. वाराकुट्टी मल्लिका (एमएस-14915एक्स), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. मोहम्मद अनास मजहर अजीज (एमएस-14917एच), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. मीनू डांगी (एमएस-14920एच), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. खुशबु (एमएस-14926के), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. शैलेश मोगरा (एमएस-14932एक्स), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. अरविंद सेमालती (एमएस-14937डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. कविता कुमारी (एमएस-14719एक्स), 11 जनवरी 2005

लेफ्टि. भावेश तालेरा (एमएस-14914पी), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. रमिन्द्रपाल सिंह चीमा (एमएस-14921एल), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. इमरान मेहंदी (एमएस-14923डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. अवनिश कुमार (एमएस-14924वाई), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. गुरवीन बैरायच (एमएस-14929एक्स), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. अखिलेश कुमार मिश्रा (एमएस-14933ए), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. जाफर इसराईल (एमएस-14934एच), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. विजय कुमार पवार (एमएस-14940डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2005

लेफ्टि. अभिषेक राठौर (एमएस-14941वाई), 27 दिसम्बर 2005

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

रोहित विकास (एमआर-08133एल), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

वर्णाली विश्वास (एमआर-08134एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

शबनम भल्ला (एमआर-08137एफ), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

प्रशान्त कुमार (एमआर-08144एक्स), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

मनीश भारतीय (एमआर-08145ए), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

कुमार राजेश रंजन (एमआर-08162ए), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

सुकरानन्द पी (एमआर-08171एफ), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

अमित पत्वनिया (एमआर-08177एच), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

अभिषेक गुप्ता (एमआर-08181एल), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

स्ववाइन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

एस के नाथ (एमआर-06558एल)(एफ-22501), एएमसी, 07 जून 2005

वी वासदेव (एमआर-06556ए)(एफ-22499), एएमसी, 07 जून 2005

मेधा रमेश कुलकर्णी (एमआर-07929पी)(एफ-23481), एएमसी, 30 सितम्बर 2005

देवाजीत तालुकदार (एमआर-6813एम)(एफ-23420), एएमसी, 10 अक्टूबर 2005

किशोर कुमार (एमआर-06615एफ)(एफ-22512), एएमसी,  
20 दिसम्बर 2005

पी जैसवाल (एमआर-06672एच)(एफ-23147), एएमसी,  
06 जून 2006

आर डी बावडेकर (एमआर-06555एक्स)(एफ-22498), एएमसी,  
07 जून 2005

के एम ए रायबागकर (एमआर-07374वाई)(एफ-27644जी),  
एएमसी, 14 सितम्बर 2006

मानस साहा (एमआर-07660ए)(एफ-23457एल), एएमसी,  
21 सितम्बर 2006

ए मुकर्जी (एमआर-06842एफ)(एफ-23464), एएमसी,  
30 अक्टूबर 2006

पार्थसरथी धाना (एम आर-07379एक्स), (ए एफ-23452),  
ए एम सी, 14 सितम्बर 2006

एच एम केशव मूर्ति (एम आर-07451एच), (ए एफ-23460),  
ए एम सी, 28 सितम्बर 2006

पी चैटर्जी (एम आर-06739डब्ल्यू), (ए एफ-23413), ए एम सी,  
04 जनवरी 2007

वी सिंह (एम आर-06742डब्ल्यू), (ए एफ-23415), ए एम सी,  
04 जनवरी 2007

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

मनीष गुप्ता (एम आर-08157पी), (ए एफ-27676के), ए एम सी,  
27 दिसम्बर 2005

सुरजीत कुमार द्विवेदी (एम आर-8050ए), (27646), ए एम सी,  
30 दिसम्बर 2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस(पर्स)

सं. 232, दिनांक 16 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्ष पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

सं. आई सी, नाम, आर्म

55201 विनय कुमार जैन, सिग्नल्स

55202 प्रेम कुमार, इंजी.

55203 सत्यांशु वर्मा, सिग्नल्स

52345	राहुल देव शर्मा, ए सी
52346	विवेक सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री
52347	बिजेन्द्रा सिंह सोनी, इन्जी.
52350	जितेन्द्रा सिंह, इन्जी.
52351	ब्रिजेन्द्र सिंह भदुरिया, ए सी
52352	घनन्जय जोशी, इन्फैन्ट्री
52354	रविन्द्रा सिंह, ए ओ सी
52355	आशिष खुराना, ए ए डी
52356	विशाल पठानिया, इन्जी.
52357	दिपांकर सिंह, इन्फैन्ट्री
52358	सलील पान्डे, इन्जी.
52359	संजय गंगवार, ए ए सी
52360	सौरव सचिमार, ए ए डी
52361	आंकुर भाटिया, ई एम ई
52362	जगदीप सिंह साहनी, इन्जी.
52363	सतपाल सिंह, ए ए सी
52364	केतन प्रसाद, ए सी
52365	बिक्रम जीत सिंह, ए एस सी
52366	संजय गौतम, मैक/इन्फैन्ट्री
52367	इबेन जैरी सिमॉन, ई एम ई
52368	के टी वारुणी, इन्फैन्ट्री
52369	नितिन कोक, इन्ट
52370	राजीव नगयाल, इन्फैन्ट्री
52371	विक्रम जीत वराइच, सिग्नल्स
52372	मोहिन्दर सिंह राना, ए एस सी
52373	नीलांजन बिस्वास, सिग्नल्स
52374	कुलभूषण जोली, इन्जी.
52375	संजीव धर, इन्फैन्ट्री
52376	रोहित महरोत्रा, ए सी
52378	नरेश भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
52379	हरजीत सिंह गिल, ई एम ई
52380	विकास कुमार, मैक/इन्फैन्ट्री
52381	वार्क राजेश लक्ष्मण, आर्टी
52382	प्रभु नारायण यादव, ई एम ई

52383	रण विजय सिंह, ए सी	52428	यशपाल तोरा, ए ओ सी
52384	राधिका रमन तिवारी, ए एस सी	52429	राजेश कुमार, आर्टी
52385	गगन दीप सिंह रूपाल, ई एम ई	52430	शिव प्रकाश, ए एस सी
52386	नवदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	52431	नितिन राठौर, इन्फैन्ट्री
52387	विशाल शर्मा, ए ओ सी	52432	जितेन्द्रा कुमार, मैक/इन्फैन्ट्री
52388	जगबीर सिंह कटारिया, ए एस सी	52433	टी ललित मोहन, इन्जी.
52390	विजय कुमार कपूर, ई एम ई	52434	बिरेन्द्र सिंह यादव, ए सी
52391	अवतार सिंह सिक्खों, इन्ट	52435	रवि यादव, इन्फैन्ट्री
52392	योगेश सी पटवर्धन, ए ए डी	52436	दिनेश चन्द्रा सिंह कनयाल, इन्फैन्ट्री
52393	इन्द्रजीत सिंह पटयाल, इन्फैन्ट्री	52437	दीपक जोशी, इन्फैन्ट्री
52394	रवि भूषण, इन्फैन्ट्री	52439	सन्दीप मेनन, आर्मी ए वी एन
52395	अभिजीत मित्रा, इन्फैन्ट्री	52440	नीरज त्रिवेदी, सिग्नल्स
52396	अभिषेक अग्निहोत्री, आर्टी	52441	अजीत पाल सिंह, सिग्नल्स
52397	सी वेलूचामी, इन्जी.	52442	जी रघुराम, सिग्नल्स
52399	रितेश पाल, ई एम ई	52443	अबरार अहमद, इन्फैन्ट्री
52400	विमल कुमार शर्मा, ई एम ई	52445	सत्याशील बाबेर, इन्फैन्ट्री
52401	जितेन्द्रा शर्मा, इन्फैन्ट्री	52446	विशाल शर्मा, ई एम ई
52404	मनीष कुमार, आर्टी	52447	मनोज कान्त उप्रेति, आर्टी
52405	प्रिन्स दत्ता, ए ओ सी	52448	कुलवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
52407	उज्जवल जी कम्मर, सिग्नल्स	52449	अजेश वर्मा, इन्जी.
52408	विरेन्द्रा सिंह मल्होत्रा, ए ए डी	52450	राकेश कुमार, मैक/इन्फैन्ट्री
52410	ए रमन, सिग्नल्स	52451	रेहान दुरानी, आर्टी
52411	विक्रम जीत सिंह पनग, मैक/इन्फैन्ट्री	52453	रोहित बक्शी, ए सी
52413	सुखजीत सन्धु, इन्फैन्ट्री	52454	मनीष सिन्हा, इन्फैन्ट्री
52414	सन्दीप सिन्हा, ए एस सी	52455	नरपाल सिंह, ई एम ई
52417	विजय महादेवन, इन्फैन्ट्री	52456	रोहित शर्मा, ई एम ई
52418	राम प्रकाश पान्डे, इन्ट	52457	नोयल विवेक मोनिस, आर्मी ए वी एन
52419	विकास सहगल, सिग्नल्स	52458	नवीन छाबड़ा, आर्टी
52420	अजय कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	52459	सुरिन्द्र होरा, इन्फैन्ट्री
52421	नांगरे पराग केशव राव, इन्फैन्ट्री	52460	रवि शंकर राय, सिग्नल्स
52422	विश्वाजीत कुमार, ई एम ई	52461	संजय चौहान, ए ए डी
52424	करनेल सिंह, आर्टी	52462	गोपाल सिंह गुलेरिया, ए ओ सी
52426	गौरव सिंह कार्की, इन्जी.	52463	नरेश कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
52427	सुनील अब्रहाम, सिग्नल्स	52464	उमेद सिंह, इन्फैन्ट्री

52465	मुराली कृष्णा जे आर वी, सिग्नल्स	52502	दिनेश चन्द्रा, ए एस सी
52466	कुश जोली, सिग्नल्स	52503	शमन चोटा, आर्टी
52467	राजीव कपूर, इन्फैन्ट्री	52505	उसमान आमिर, ई एम ई
52468	दिपांशु सिन्हा, इन्फैन्ट्री	52506	ओका भूषण उपेन्द्रा, इन्फैन्ट्री
52469	देवेन्द्रा सिंह, ए एस सी	52507	जयन के वर्गीस, इन्जी.
52470	रजत दत्ता, ए ओ सी	52508	पंकज विनायक, इन्फैन्ट्री
52471	संजय चन्द्रा कन्दपाल, इन्फैन्ट्री	52509	संदीप शर्मा, ए एस सी
52472	विजय कुमार रंगनाथ जगताप, इन्फैन्ट्री	52512	अनिल कुमार एस, इन्फैन्ट्री
52473	वी नागेन्द्रा रॉव, इन्जी.	52513	विक्रम सिंह पटानिया, इन्फैन्ट्री
52474	हिमांशु भटनागर, सिग्नल्स	52514	संजय सेमवाल, इन्जी.
52475	मनीश जोशी, इन्फैन्ट्री	52515	मुचिनि अजय, ई एम ई
52476	अनिमेश जायसवाल, इन्फैन्ट्री	52516	नितिन वसन्त पुन्डे, आर्टी
52477	अजय वर्मा, इन्जी.	52518	आशिष नोटियाल, ई एम ई
52478	मुकेश अग्रवाल, ई एम ई	52520	राम रसिक शरण, इन्फैन्ट्री
52479	सन्दीप राना, ए एस सी	52521	संजीवी रमेश कुमार, आर्टी
52481	घन्ना राम चौधरी, ए ओ सी	52522	अभिषेक चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री
52482	बालुसु श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री	52523	जितेन्द्र सिंह, आर्टी
52483	किशन मोहन अग्रवाल, इन्जी.	52525	रंजीव के बाबु, इन्फैन्ट्री
52484	गौतम गुहा, इन्फैन्ट्री	52526	राकेश चन्द कटोच, इन्फैन्ट्री
52485	तिलेकर सचिन रघुनाथ, इन्ट	52527	भंवर सिंह राठौर, मैक/इन्फैन्ट्री
52486	अजीत सिंह, ई एम ई	52528	ज्ञानेन्द्रा पान्डे, ए ओ सी
52487	अजय अग्रवाल, ई एम ई	52530	शलव सनवाल, इन्फैन्ट्री
52488	मुखर्जी जॉयदीप बिक्रम चन्द्रा, इन्फैन्ट्री	52531	पंकज साहनी, इन्फैन्ट्री
52489	एस जाफरियप एच रिज़वी, इन्फैन्ट्री	52532	सिद्धार्थ घोष, ई एम ई
52490	राहुल त्रिवेदी, इन्जी.	52534	रमन दीप सिंह सन्धु, आर्टी
52491	रन्धावा सिंह, आर्टी	52535	रन्जन कुमार चौधरी, सिग्नल्स
52492	अमित दत्ता, आर्टी	52536	नवदीप सिंह, ए एस सी
52493	रन्धीर सिंह, आर्टी	52537	सुनील गुप्ता, सिग्नल्स
52494	अबिनाश आचार्य, ए एस सी	52539	गोविन्द सिंह दियोपा, सिग्नल्स
52495	कंवर अश्वनी वशिष्ठा, ए सी	52540	राकेश मेहरा, इन्फैन्ट्री
52496	नवनीत मेहता, ए एस सी	52543	अमित अश्री, आर्टी
52499	मनोज कुमार बजाज, ए ओ सी	52544	विशाल चन्दा, ए एस सी
52500	गुरमीत सिंह पन्नु, ए ओ सी	52545	अनन्त पाल सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
52501	बाबु जयशंकर चन्द्रानाथ, इन्फैन्ट्री	52546	कुलबीर सिंह हुन्दल, ई एम ई

52547	राजविन्द्र सिंह, इन्जी.	52589	के एस जानकीराम, ई एम ई
52548	परवी धीमन, आर्टी	52590	काजले सागर दत्तोत्रेय, इन्फैन्ट्री
52549	विवेक मलिक, आर्टी	52591	विनोद कुमार शर्मा, ई एम ई
52550	संजीव शर्मा, आर्टी	52593	परमवीर सिंह, सिग्नल्स
52553	मिनिश रमेश किनहिकर, इन्जी.	52594	जयदीप सिंह पन्तु, ए एस सी
52554	सैय्यद तक्की अब्बास रिज़वी, ए एस सी	52595	रविन्द्रा चसवाल, आर्टी
52555	डॉ श्रीनिवासन, आर्टी	52596	मनीष अस्थाना, इन्फैन्ट्री
52556	अभिनव गुरहा, इन्फैन्ट्री	52597	बी गिरिश कुमार, आर्टी
52557	अनिल ठाकुर, ए एस सी	52598	विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री
52558	एन हरी, सिग्नल्स	52599	राजीव कुक्कल, आर्टी
52559	निखिल तिवारी, ए एस सी	52601	विजय मिश्रा, सिग्नल्स
52560	मनदीप सिंह, इन्ट	52602	राहुल कुमार, ए ओ सी
52563	रजनीश भटनागर, ई एम ई	52605	एन वी एस एस सुब्रामनिया कुमार, इन्जी.
52564	सुजय कुमार, ई एम ई	52606	राजेन्द्रा कोटकर, सिग्नल्स
52566	जसविन्द्र सिंह, सिग्नल्स	52607	मनीष वन्तु वाछेर, सिग्नल्स
52567	आर जया कुमार, इन्फैन्ट्री	52608	पुनीत सुरी, इन्जी.
52568	धीरज सिंह, ए एस सी	52612	सिवादासन एम, आर्टी
52569	प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	52613	दविन्द्र सिंह, ए सी
52570	हरबिन्दर सिंह बरार, इन्फैन्ट्री	52614	समीर अरोडा, ए ओ सी
52572	राजीव सिंह, इन्फैन्ट्री	52615	रजत शर्मा, आर्टी
52573	अनूप रावत, आर्टी	52616	विवेक एहलावत, ई एम ई
52575	राम मधुके शर्मा, इन्फैन्ट्री	52617	मधुसूदनन जी, इन्जी.
52577	खण्डेलवाल कमलेश बजरंगलाल, सिग्नल्स	52618	नवीन टिचोटिचा, आर्टी
52578	अंशुमान सिंह, इन्फैन्ट्री	52620	हिम्मत सिंह, ए सी
52579	रविन्द्र पाल सिंह पॉल, इन्फैन्ट्री	52621	जीत बहादुर, आर्टी
52580	सतनाम सिंह बाजवा, ए ओ सी	52624	अनिल कुमार यादव, आर्टी
52581	रवि भूषण, इन्फैन्ट्री	52625	जयदीप, आर्टी
52582	अमन दीप सिंह, ए ए डी	52626	महीपाल सिंह माहार, इन्फैन्ट्री
52583	अशोक मोर, ए एस सी	52627	विजय चाहार, इन्फैन्ट्री
52584	अजय पाल कोशिश, इन्फैन्ट्री	52628	मनीष कुमार, ए ओ सी
52585	विक्रम जीत सिंह परमार, ए ओ सी	52629	आशुतोष मल्ला, ए ओ सी
52586	समित वर्मा, ए सी	52630	लीला धर बोबा, इन्फैन्ट्री
52587	सन्तोष फिलिप, ए एस सी	52631	जयन्ता कुमार जना, ई एम ई
52588	अनुराग भारद्वाज, आर्टी	52632	दीपक गौर, इन्फैन्ट्री

52634	पुनीत शर्मा, इन्फैन्ट्री	52674	पार्था सार्थी मोहापत्रा, सिग्नल्स
52635	दहीतुले प्रमोद शाहाजी, आर्टी	52675	अनुराग नोटियाल, आर्टी
52636	विक्रम कश्यप, ए एस सी	52676	वी विनोद, इन्जी.
52637	अनूप नटराजन, इन्फैन्ट्री	52677	सी चन्द्रा शेखर, आर्टी
52638	अरविन्द वर्मा, ए सी	52678	जगत ब्यापी स्वेन, ए ओ सी
52639	सुनील गोडयाल, ए एस सी	--11 दिसम्बर 2006	
52640	तुषार जोशी, इन्फैन्ट्री	54242	साखरे अनिरुद्धा, सिग्नल्स
52641	विवेक शर्मा, ई एम ई	54245	राजिन्द्र कुमार, इन्जी.
52643	आशिष बदोला, ई एम ई	54246	विक्रान्त पान्डे, ई एम ई
52644	ओम प्रकाश सिंह, ए एस सी	54247	गुरप्रीत सिंह बेदी, ई एम ई
52646	रजनीश शर्मा, इन्फैन्ट्री	54249	गोपा कुमार एन, ई एम ई
52648	अजय शुक्ला, इन्फैन्ट्री	54250	सी एस थिरुवेंकटस्वामी, इन्जी.
52649	संजीत शंकर सहाय, इन्फैन्ट्री	54251	साध्ये चन्द्रशेखर शाम सुन्दर, ई एम ई
52650	सोमोन कुमार घोष, इन्जी.	54252	पिंगिली हिमावंथ रेड्डी, इन्जी.
52651	मिजार प्रसाद जयन्त, मैक/इन्फैन्ट्री	54253	चन्द्रा शेखर एस एम, सिग्नल्स
52652	जशवन्त सिन्हा, इन्जी.	54254	राजीब चट्टोपाध्याय, सिग्नल्स
52654	विवेक गोस्वामी, सिग्नल्स	54255	दिनेश कुमार, इन्जी.
52655	बल्लाने राजेश नन्द कुमार, इन्जी.	54256	जगमोहन सिंह आहलूवालिया, ईएमई
52656	निलेश कुमार झा, ए एस सी	54258	रघुवीर सिंह भूमला, ईएमई
52657	सुशान्त कुमार सिंह, इन्जी.	54259	पूथा अनिल कुमार, ईएमई
52658	पी विश्वास जीवन्त, इन्जी.	54260	नवीन एहलावत, इन्जी.
52659	के रामाकृष्णन, आर्टी	54261	मनिन्दर प्रीत सिंह, इन्जी.
52662	रमणीक गोस्वामी, ई एम ई	54262	वनित पासी, सिग्नल्स
52663	अल्फ्रेड एन्टोनी, ई एम ई	54264	विनित सक्सेना, सिग्नल्स
52664	अनिल अमर, ए एस सी	54267	गौतम तनेजा, इन्जी.
52665	सुजीत कुमार मोन्डल, आर्टी	54268	प्रवीर मिश्रा, इन्जी.
52666	हेमन्त सिंह, ए ए डी	54269	एस स्रवनन, इन्जी.
52667	विनोद कुमार, इन्जी.	54270	तनिश कुमार, इन्जी.
52668	प्रशान्त पचौरी, आर्टी	54272	अजय बासनेट, ईएमई
52669	देवेन्द्र सिंह सोहल, ई एम ई	54273	दास तपस कुमार बिस्वनाथ, ईएमई
52670	शुभेन्दु घोष, इन्फैन्ट्री	54274	राम चन्द्रा, सिग्नल्स
52671	नरेश चौधरी, मैक/इन्फैन्ट्री	54275	अनुपम कुमार सिंह, ईएमई
52672	अविनाश चन्द्र, ए ओ सी	54276	कालिन्दिनी एस एस वर्मा, सिग्नल्स
52673	विक्रान्त सिंह, सिग्नल्स	54277	इन्द्र मोहन सिंह, इन्जी.



54279	अलोक जैन, ईएमई	60115	के किरन, इन्फैन्ट्री
54280	मनोज कुमार वी के, ईएमई	60116	रोमिल चन्द्र, ईएमई
54282	शिल्पी शुक्ला, ईएमई	60117	नीरज शर्मा, एएडी
54283	राजेश गोपाल, सिग्नल्स	60118	पंकज अशोक धोरान, एओसी
54284	सुनील कुमार वी, ईएमई	60119	अमित ढांड, इंजीनियर्स
--12 दिसम्बर 2006		60120	नरेश चौहान, आर्टी
कप्तान से मेजर		60121	विक्रान्त एस शिन्दे, इन्फैन्ट्री
आईसी नं., नाम एवं आर्म		60122	समर सिंह चौहान, एसी
60085	विक्रम सिंह राय, एसी	60123	अभिषेक यादव, एओसी
60087	पियुष कुमार जैन, इन्जीनियर्स	60124	गौरव दलाल, ईएमई
60088	अमित सेठी, एएडी	60125	अरुण वर्गीस, इन्फैन्ट्री
60089	दीपक, ईएमई	60126	सुधांशु द्विवेदी, इन्फैन्ट्री
60090	संदीप कालरा, आर्टी	60128	ललित कुमार जैन, इन्फैन्ट्री
60091	पियुष शुक्ला, इन्फैन्ट्री	60129	विवेक कुमार ठाकुर, इन्फैन्ट्री
60092	धर्मेन्द्र यादव, इन्फैन्ट्री	60130	अभिषेक सिंह, इन्फैन्ट्री
60093	ख्वाजा सुल्तान अहमद खान, इन्फैन्ट्री	60131	विक्रम सिंह, सिग्नल्स
60095	रत्नेश, इन्फैन्ट्री	60132	आनन्द चन्द्र बोईटी, ईएमई
60096	विवेक कंवर, इन्फैन्ट्री	60133	आकाश करवाल, इन्फैन्ट्री
60097	अमित बक्सी, मैक इन्फैन्ट्री	60134	सुदिप्तो चाकी, आर्टी
60098	वैभव राना, आर्टी	60135	सुनील कुमार, इंजीनियर्स
60099	कमल दीप सिंह सन्धू, इन्फैन्ट्री	60136	अभिनव ठाकुर, ईएमई
60100	नील कटोच, इन्फैन्ट्री	60137	सूचक वाई कुमकार, एएससी
60101	अमित महेन्द्र शर्मा, ईएमई	60138	शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सिग्नल्स
60102	पियुष बिष्ट, आर्टी	60139	मनोज कुमार राणा, इन्ट
60103	कुलदीप सिंह, एसी	60140	गिरिश कुमार गांधी, इंजीनियर्स
60104	बिभूति कुमार झा, सिग्नल्स	60141	मुकुंद एम जी, इन्फैन्ट्री
60106	जी वी अन्शू, सिग्नल्स	60142	अर्जुन दूबे, एसी
60107	नयन जयोति बुरा गोहेन, इन्फैन्ट्री	60143	के एम नितिन कुट्टप्पा, इन्फैन्ट्री
60108	पंकज जोशी, आर्टी	60144	राजीव चौहान, आर्टी
60110	सम्राट सिंह, इंजीनियर्स	60145	गौरव कुमार पाण्डे, एएससी
60111	सुरेन्द्र सिंह, आर्टी	60146	हरीश जोशी, इन्फैन्ट्री
60112	दिनेश तिवारी, सिग्नल्स	60147	मनीष आहलूवालिया, आर्टी
60113	विजय आनन्द राव शिन्दे, इन्ट	60148	पुनार प्रीत सिंह मान, मैक इन्फैन्ट्री
60114	मृदुल वर्मा, इन्फैन्ट्री	60149	विवेक बहुगुणा, एएससी

60151	गुरिन्दर सिंह क्लेयर, एसी	60188	के जे साजू, एएडी
60152	कुणाल सिन्हा, इन्फैन्ट्री	60189	बोबी जसरोटिया, इन्फैन्ट्री
60153	नारायण दास, इन्फैन्ट्री	60190	सी आर धीरज, आर्टी
60154	गौरव सर्वप्रिया जुनेजा, आर्टी	60191	इन्द्रजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
60155	कपिल चन्द्रकान्त जोध, आर्टी	60192	पुनित श्रीवास्तव, एएससी
60156	अजित कुमार रेड्डी, ईएमई	60193	राजीव कुमार नायर, आर्टी
60157	संजय जोशी, ईएमई	60194	सी एस जयाराम, सिग्नल्स
60158	पुनीत चौहान, इंजीनियर्स	60195	सुनु जॉन्, एएससी
60159	अंकुर सोरिक, इन्फैन्ट्री	60196	सुनील कुमार, आर्टी
60160	प्रवीन कुमार, इन्फैन्ट्री	60197	एल सोनाभनी मीतई, सिग्नल्स
60161	अमनदीप सिंह, एएससी	60198	सौरभ ईनामदार, इंजीनियर्स
60162	सैफ नसीम, आर्टी	60199	वसन्त गुरूव, इन्फैन्ट्री
60163	गौरव मेहरा, मैक इन्फैन्ट्री	60200	नलिन दुर्गापाल, इन्फैन्ट्री
60165	वैभव अनिल काले, इन्फैन्ट्री	60201	देवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
60166	गौरव कुमार महिन्द्रा, एसी	60203	उज्ज्वल खातीवाडा, एओसी
60167	पवन चसवाल, इन्फैन्ट्री	60204	नरेन्द्र सिंहा, इन्फैन्ट्री
60168	राजेश द्विवेदी, इंजीनियर्स	60205	पदमाटीकोना गोवर्धन रेड्डी, इंजीनियर्स
60169	सौरभ राठी, इन्फैन्ट्री	60206	सौरभ कपूर, इंजीनियर्स
60170	अमिन्दर सिंह बैन्स, इन्फैन्ट्री	60207	अमित चौधरी, एओसी
60171	सलाम सत्यजीत सिंह, आर्टी	60208	मृदुल एम नायर, ईएमई
60172	राम मूर्ति, एएडी	60209	नरेन्द्र त्रिपाठी, ईएमई
60173	रजत कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	60210	जितेन्द्र सिंह भल्ला, ईएमई
60174	सम्बित कुमार नायक, सिग्नल्स	60211	अक्षय कंवर, इन्फैन्ट्री
60175	अक्षय पाण्डे, सिग्नल्स	60212	निखिलेश्वर, इन्फैन्ट्री
60176	एन निखिल, ईएमई	60213	हरि प्रसाद, इन्फैन्ट्री
60177	अश्विनी कुमार शर्मा, इंजीनियर्स	60214	प्रमोद कुमार गहलोत, इन्फैन्ट्री
60178	रवि जकारिया, एएडी	60215	अरुण मेनन, आर्टी
60179	राजेन्द्र जे राणे, इन्फैन्ट्री	60216	प्रभात बिष्ट, ईएमई
60180	सगत सिंह राठौर, ईएमई	60217	जगबीर सिंह दलाल, एएडी
60181	विश्वजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	60218	समीर श्रीवास्तव, मैक इन्फैन्ट्री
60183	विशाल शरद चिंचंकार, इन्फैन्ट्री	60219	प्रमोद कुमार, इन्फैन्ट्री
60184	किसल्या दुबे, इन्फैन्ट्री	60220	योगेन्द्र कुशवाहा, आर्टी
60185	सुशील मिन्हास, इन्फैन्ट्री	60221	शमित ठाकुर, इंजीनियर्स
60187	अंशुमन हांडा, आर्टी	60222	मनीष कुमार, इन्फैन्ट्री

60223	विश्वास प्रदीप परांजपे, इन्फैन्ट्री	60259	साकेत सुमन, इन्फैन्ट्री
60225	नरेश बनयाना, एएससी	60260	सुशांत गोविल, इन्फैन्ट्री
60226	अमन लूथरा, इन्फैन्ट्री	60261	पाटिल रोहित रमेश, इन्फैन्ट्री
60227	विद्या भूषण तिवारी, ईएमई	60262	चिना दसारी श्रीनिवास, आर्टी
60228	राहुल गौड़, एओसी	60263	अनुराग सिंह, आर्टी
60229	अभिमन्यु शेखावत, एसी	60264	मन्दार माधव भालेराव, सिग्नल्स
60230	पवन कुमार, सिग्नल्स	60265	कुमार गौरव, इंजीनियर्स
60231	राजीव कौशिक, इन्फैन्ट्री	60266	गुरिन्दर सिंह, इन्ट
60232	मनमोहन ठाकुर, आर्टी	60268	निगल चार्ल्स डी कोस्टा, आर्टी
60233	शारंग पुन, इन्फैन्ट्री	60269	पुनीत शर्मा, इंजीनियर्स
60234	रिपजीत सिंह राय, इन्फैन्ट्री	60270	छलामाला सेती लिनेश कुमार, आर्टी
60235	अक्षय बहल, इन्फैन्ट्री	60271	पंकज कुमार सिंह कुशवाहा, ईएमई
60236	सुरेश गुरव, इंजीनियर्स	60272	अजय रावत, एओसी
60237	विशाल अशोक राव अहेर, इन्फैन्ट्री	60274	संदीप कुमार, एएससी
60238	शैलेन्दर सिंह कटोच, एएडी	60275	अनिन्दा मंडल, एसी
60239	अविषेक मुकर्जी, इन्फैन्ट्री	60276	राम रतन, ईएमई
60240	अनिरुद्ध भूषण अग्रवाल, इंजीनियर्स	60277	सुरेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
60241	शालू राजा, ईएमई	60278	रूप कुमार सिंह, ईएमई
60242	राकेश वसन्त थयिल, सिग्नल्स	60279	नीरज कुमार, आर्टी
60243	कुलदीप सिंह, एओसी	60280	निखिल पाण्डे, एएडी
60244	विवेक रेहनी, एएससी	60281	नितिन कुमार, इंजीनियर्स
60245	विकास गौतम, सिग्नल्स	60282	अरिजीत नारायण मुखोपाध्याय, इन्फैन्ट्री
60246	जितेश आर दिक्षित, इन्फैन्ट्री	60283	अमित डोगरा, इन्फैन्ट्री
60247	समीर बलवन्तराव गुजर, इन्फैन्ट्री	60284	राजेश्वर जामवाल, इन्फैन्ट्री
60248	मनोज कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री	60285	अमृत कुलकर्णी, सिग्नल्स
60249	अनूप अग्रवाल, इन्फैन्ट्री	60287	राजदीप सिंह जामवाल, एएससी
60250	हरप्रीत सन्धू, इन्फैन्ट्री	60288	विकास कुमार, सिग्नल्स
60251	तनमय पाठक, इन्फैन्ट्री	60289	परेश भास्कर देशपाण्डे, इन्फैन्ट्री
60252	वी गिरिश, एओसी	60290	रजनीश सिंह परमार, इंजीनियर्स
60253	कमल नोरियाल, इन्फैन्ट्री	60292	आशुतोष श्रीवास्तव, आर्टी
60254	सौरभ चौधरी, इंजीनियर्स	60293	सारंग मनोहर चव्हाण, इन्फैन्ट्री
60255	राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	60294	निश्काम पुरी, इंजीनियर्स
60257	राजेश्वर सिंह, एएडी	60295	रोचक बक्शी, आर्टी
60258	पंकज प्रकाश पाण्डे, एएससी	60296	कनिष्क सिंह, एसी

60298	संतोष कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	60338	जसविन्दर सिंह, सिग्नल्स
60300	अरविन्द कुमार ठाकुर, एओसी	60339	आशीश प्रकाश कंडवाल, इन्फैन्ट्री
60301	सुधीर सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	60340	त्रिभुवन नारायण सिंह, इन्फैन्ट्री
60302	मनु सूदन, इन्फैन्ट्री	60341	पवन अनिल जोशी, एओसी
60303	राहुल शुक्ला, ईएमई	60342	गुरचरण सिंह, आर्टी
60304	शैली के दास, एएडी	60343	संजय सांध्य, एएडी
60305	राजेन्द्र पाल सिंह सन्धू, एएससी	60344	राजकुमार विजय कुमार विश्वनाथ, एएससी
60306	रमनीक सिंह भाबरा, इन्फैन्ट्री	60345	अजीत बासवान, मैक इन्फैन्ट्री
60307	अभय आचार्य, मैक इन्फैन्ट्री	60346	रत्नाकर गौडा, इंजीनियर्स
60308	अमय अशोक काले, ईएमई	60348	बिरेन्द्र सिंह वाल्मिदया, आर्टी
60309	सुरेश कुमार, सिग्नल्स	60349	संदीप सिंह वालिया, आर्टी
60310	राजीव कुमार सिंह, ईएमई	60350	अभिषेक मल्ल, इन्फैन्ट्री
60311	समरिध छिब्र, एएससी	60351	जसविन्दर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
60313	रविन्द्र रानानवारे, इन्फैन्ट्री	60353	सतपाल सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
60314	कृष्ण कान्त गिरि, आर्टी	60354	आशू सूरी, इन्फैन्ट्री
60315	चेतन कुमार, इंजीनियर्स	60355	संजीव कुमार, एओसी
60316	भवनीत सिंह, आर्टी	60356	शिखरेश वत्स, ईएमई
60317	अभिनव बत्रा, ईएमई	60357	निम्बालकर पराग सम्भाजी, आर्टी
60318	अमित नाथ, एओसी	60359	दुष्यन्त कुमार, आर्टी
60320	विनय शर्मा, इंजीनियर्स	60360	कुलदीप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
60321	आशीष मिश्रा, इन्फैन्ट्री	60361	विकास वर्मा, एएडी
60322	अजय नेगी, एएससी	60362	राजेन्द्र प्रसाद, सिग्नल्स
60323	अवनीश सिंह, इन्फैन्ट्री	60363	कमल बचानी, आर्टी
60326	एच गोपाल कृष्णन, सिग्नल्स	60364	प्रदीप कुमार, आर्टी
60327	राजेश विलास हंकारे, इन्फैन्ट्री	60365	पराग डोवल, इंजीनियर्स
60328	दिगम्बर सिंह, इन्फैन्ट्री	60366	धीरज सुहास जोशी, ईएमई
60329	तरुन दुआ, आर्टी	60367	अजीत सिंह, एएससी
60330	महेश तनेजा, इन्फैन्ट्री	60368	हरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
60331	के एम सन्तोष, ईएमई	60369	हिमांशु पंवार, इन्फैन्ट्री
60332	विनोद सिंह, इन्फैन्ट्री	60370	अमित राना, एसी
60334	सिरिल अन्थोनी सतूर, एसी	60371	अभिषेक कुमार वर्मा, सिग्नल्स
60335	कुवंर अनुराग सिंह, आर्टी	60372	भाटे अमोल अरविन्दराव, एएडी
60336	सतविन्दर सिंह सिद्धू, इंजीनियर्स	60373	अनिल वेंकटरमानी, ईएमई
60337	नितिन शर्मा, आर्टी	60374	जितेश अरोडा, इंजीनियर्स

60375	संजोग सिंह थापा, इंजीनियर्स	60409	रंजीत दुग्गल, एओसी
60376	टी जॉय कुमार, सिग्नल्स	60410	मंदार उल्हास भांडेकर, आर्टी
60377	अनिरुध शेखावत, सिग्नल्स	60411	शशांक परमार, इन्फैन्ट्री
60378	अभिजीत सिंह, आर्टी	60412	रजनीश मेहता, ईएमई
60379	रनयोध सिंह, इन्फैन्ट्री	60413	अनमोल तनेजा, एएडी
60380	एम के शुशांत, एसी	60414	धीरज खन्ना, आर्टी
60381	अवीक कोनार, इन्फैन्ट्री	60415	धर्मेज दलाल, इन्फैन्ट्री
60382	लेटेनजम राकसन, इन्फैन्ट्री	60416	अर्जुन अनदोत्रा, एओसी
60383	दीपक सिंघल, इन्फैन्ट्री	60417	अमन वशिष्ठ, इंजीनियर्स
60384	अमित बेनीवाल, एएससी	60418	सुनील कुमार सिंह, इंजीनियर्स
60385	पंकज कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	60419	प्रमोद सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री
60386	मनीष सिंह, इन्फैन्ट्री	60420	सपनेष किशोर साहू, सिग्नल्स
60387	आशीष एस बोरगांवकर, आर्टी	60421	अमित मोहन, एएससी
60388	आशुतोष सहाय, एएससी	60422	लेजे जेकब जोहन, इन्फैन्ट्री
60389	विपुल मेनन, इन्फैन्ट्री	60424	प्रताप सांघी बिग्रह, आर्टी
60390	ललित मोहन मिश्रा, इन्फैन्ट्री	60425	स्टीफन डी कोस्टा, आर्टी
60391	ऋषि मोहन, इन्फैन्ट्री	60426	अविनाश डी हेम्मदी, इन्फैन्ट्री
60392	भारत प्रताप सिंह तोमर, इंजीनियर्स	60427	प्रसन्नजीत कार, इन्फैन्ट्री
60393	आकाश शर्मा, इंजीनियर्स	60428	उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आर्टी
60394	महेन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	60429	प्रतीश जी, ईएमई
60395	राहुल शर्मा, एएससी	60430	कुलकर्णी अभिजीत मुकंद, सिग्नल्स
60396	रविन्द्र प्रताप सिंह, ईएमई	60431	शेख मस्तान वली, एएससी
60397	सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री	60432	संदीप सिंह चौहान, आर्टी
60398	विनोद अत्री, एसी	60433	अनुराग बहल, इन्फैन्ट्री
60399	संदीप सिंह ठाकुर, ईएमई	60434	विजय कुमार चौबे, आर्टी
60400	जसराज सिंह, आर्टी	60435	अखिलेश थापा, इन्फैन्ट्री
60401	गौरव नारंग, इंजीनियर्स	60436	संदीप कुमार सिंह, एसी
60402	संजीव कुमार ठाकुर, एएससी	60437	विकास भूमिया, इंजीनियर्स
60403	विजय किशोर झा, सिग्नल्स	60438	ऋषिपाल सिंह, सिग्नल्स
60404	नरेन्द्र प्रसाद सेमालती, इन्फैन्ट्री	60439	चिराग सिंह बाराक, मैक इन्फैन्ट्री
60405	अमनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	60440	धीरज अरोडा, इन्फैन्ट्री
60406	विशाल मुद्दे, इन्फैन्ट्री	60441	पार्था प्रातिम दुबे, इन्ट
60407	सन्देश कुमार, एएडी	60442	विनोद कुमार सौरन, इन्फैन्ट्री
60408	अमित जाखड, ईएमई	60444	के चन्द्र मोहन रेड्डी, सिग्नल्स

60446	नविन्दर सिंह मान, इन्फैन्ट्री	60484	सैय्यद तबरेज शमशाद, इन्जी.
60447	बिनिश सी टी, ईएमई	60485	मनीश कुमार सिंह, सिग्नल्स
60448	निर्मलेन्दु पाण्डे, इन्फैन्ट्री	60486	रत्नदीप खान, आर्टी
60449	अलोक सिंह, ईएमई	60487	उमंग कोहली, एसी
60450	पियुष सूद, इन्फैन्ट्री	60488	अरूण कुमार साहू, एएससी
60451	अभिषेक तोमर, आर्टी	60489	नृपेन्द्र सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
60452	कवर दीप सिंह बाजवा, इन्फैन्ट्री	60490	अखिलेश मोहन तिवारी, ईएमई
60453	हरीश रामचन्द्रन, इन्फैन्ट्री	60491	पंकज शर्मा, एओसी
60454	सलिल पुरी, सिग्नल्स	60492	सुखदेव सिंह नागियाल, एएडी
60455	केसरी सिंह राठौर, एएडी	60493	तुहिन चौधरी, एसी
60456	सचिन पांडे, इन्जी.	60494	मोहम्मद शब्बीर जरीवाला, एसी
60457	राहुल बैनर्जी, इन्जी.	60495	सुद्धार्थ आर हिरेमथ, इंजीनियर्स
60458	वागले विशाल रघुनन्दन, ईएमई	60496	सिद्धार्थ मुखर्जी, एएडी
60459	अशोक कुमार शर्मा, आर्टी	60497	सोमनाथ चक्रवर्ती, एओसी
60460	नितिन मिश्रा, इन्जी.	60500	वी महेश, एसी
60461	मनत हुसैन, इन्फैन्ट्री	60501	भास्कर कटारिया, इन्फैन्ट्री
60462	अविनाश भालचन्द्र पाडियार, आर्टी	61189	राजेश बेंदा, एईसी
60463	अभिषेक बच्चन, एओसी	61206	राजीव गुलेरिया, एईसी
60464	सचिन कुमार, ईएमई	61213	सहदेव सिंह रायजादा, एईसी
60466	लेख राज, मैक/इन्फैन्ट्री	61216	दीपक सिंह, एईसी
60467	हिम्मत सिंह ढिल्लो, इन्फैन्ट्री	61222	अभिषेक झा, एईसी
60469	हनमन्त पाटिल, इन्ट		
60470	रजनीश त्यागी, इन्फैन्ट्री	62929	सुखजीत सिंह, सिग्नल्स
60471	अरनब कुमार देब, एओसी	62930	मनीष सिंह, सिग्नल्स
60472	सोमाशीष गोस्वामी, इन्फैन्ट्री	62931	गुरिन्दर पाल सिंह सन्धू, ईएमई
60473	सचिन सक्सेना, सिग्नल्स	62932	मनोज कुमार घोष, इन्जी.
60474	शैलेन्द्र रावत, आर्टी	62933	परविन्दर सिंह सेनी, इन्जी.
60475	रंजीव कुमार शर्मा, आर्टी	62934	प्रहलाद ओइनम, ईएमई
60476	सुनील कुमार सिंह, आर्टी	62936	मन्दार चन्द्र शेखर कोडनिकर, इन्जी.
60477	विरिन्द्र सिद्धू, इन्फैन्ट्री	62938	संजय कुमार, इन्जी.
60478	कंचन कुमार, ईएमई	62939	गौरव मिश्रा, ईएमई
60480	देवेन्द्र तेहलान, इन्फैन्ट्री	62940	रंजन नेगी, इन्जी.
60481	चिनित चोपड़ा, मैक/इन्फैन्ट्री	62941	भगवत मुकुंद केशव, सिग्नल्स
60482	अमित कुमार, इन्फैन्ट्री	62943	वी राजू, इन्जी.

--09 दिसम्बर 2006

- 62944 रोहित रामाचद्र पट्टेड, इन्जी.  
 62945 मोहित बिष्ट, इन्जी.  
 62948 आशीश गोयल, इन्जी.  
 62949 अन्शु, ईएमई  
 62950 कुलभूषण शर्मा, सिग्नल्स  
 62951 यामीर तिवारी, इन्जी.  
 62952 मुकेश श्रीवास्तव, सिग्नल्स  
 62953 नितिन कुमार, इन्जी.  
 62955 इयान डोमनिक अलेक्जेंडर, ईएमई  
 62956 पाटिल मंदार राव साहेब, ईएमई

--10 दिसम्बर 2006

शिव राम बैरवा  
 उप निदेशक  
 एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 233 दिनांक 17 अप्रैल 2007.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 10.01.2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

जीतेश गोयल (एम एस-14310-डब्ल्यू), एम आर-08315वै), (एफ-26505-एल), एएमसी 21.01.2006

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 18.07.2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

राकेश सी आर (एम एस-14382-ए), (एम आर-08241पी), (एफ-26502-ए), एएमसी 21.01.2006

प्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

प्लाइट लेफ्टिनेन्ट राकेश सी आर (एमएस-14382-ए), (एमआर-08241-पी), (एफ-26502-ए) एएमसी 21.01.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 10.01.2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

प्लाइट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

प्लाइट लेफ्टिनेन्ट जीतेश गोयल (एमएस-14310डब्ल्यू), (एमआर-08315वै), (एफ-26505एल) एएमसी 21.01.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

सहायक डीजीएफएमएस (कार्मिक)

सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 234 दिनांक 17 अप्रैल 2007.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

एमएस-13876एक्स मेजर इरा भगत की पदोन्नति की तिथि जो कि दिनांक 13 दिसम्बर 2003 के राजपत्र में प्रकाशित क्रम संख्या 05 पर है। इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है--

के लिए -- 18.01.2003

पढ़ें -- 18.07.2002

राष्ट्रपति महोदय नीचे दिए एएमसी/पीसी अधिकारियों के संबंध में सहर्ष विंग कमाण्डर के रैंक पर पदोन्नति होने पर राजपत्र अधिसूचना में उनके नामों के सामने प्रकाशित तिथि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

रैंक, नाम, एम आर नं. गजट की तिथि और पदोन्नति की तिथि, के स्थान पर यह पढ़ा जाए

विंग कमाण्डर एस दत्ता, (एमआर-06405एफ), (एफ-20948), 14.01.2006, 12 मई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर मनोज कुमार, (एमआर-06431एच),  
(एएफ-21990), 14.01.2006, 13 मई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर जी के केशवमूर्ती, (एमआर-06410एम),  
(एएफ-20949), 14.01.2006, 22 जून 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर जे एस वाग्ले, (एमआर-07318ए), (एएफ-20956),  
14.01.2006, 13 जुलाई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर एच एस त्रेहन, (एमआर-06316एच),  
(एएफ-21496) 14.01.2006, 24 जुलाई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर ज्योति मरिया, (एमआर-07152के), (एएफ-23066),  
25.03.2006, 15 जुलाई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर अनिरुध अग्रवाल, (एमआर-06326एम),  
(एएफ-21497) 25.03.2006, 24 जुलाई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर ए. सक्सेना, (एमआर-06327पी), (एएफ-21498)  
14.01.2006, 24 जुलाई 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर मुथूवेल एस, (एमआर-06602के), (एएफ-20962)  
25.03.2006, 08 अगस्त 2005, 16.12.2004

विंग कमाण्डर बासवर कुमार पॉल, (एमआर-07443के),  
(एएफ-23154) 13.01.2007, 08 फरवरी 2005, 16.12.2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

सहायक डीजीएफएमएस (कार्मिक)



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th May 2007

No. 222, dated 12th April 2007—The President is pleased to appoint Shri Ajay Tirkey, IAS (MP:87), Director in the Department of Defence as Joint Secretary in the same Department w.e.f. 12.3.2007(FN), in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/-, for the balance period of his Central deputation tenure i.e. upto 6.6.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

The President is pleased to appoint Shri V.P. Varghese, CSS, Under Secretary Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. 28.2.2007 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/8/2006-CS.I. dated the 28th February, 2007.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Virendra Kumar Adhana, Works Manager, Rifle Factory, Ishapur, West Bengal, as Contract Purchase Officer (CPO) in the Deptt. of Defence Production, Ministry of Defence for a period of 3(three) years w.e.f. 19.03.2007(FN) upto 18.03.2010 or until further orders, whichever is earlier.

S.K. DEB  
Under Secretary

No. 223, dated 12th April 2007—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Singhal and Shri R.S. Proach, Under Secretaries, Grade I of CSS in the Ministry of Defence (Finance Division) to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on ad-hoc basis w.e.f. 28.02.2007(FN) until further orders subject to following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAMESH KUMAR  
Director (Fin/E)

## ARMY BRANCH

No. 224, dated 16th April 2007—The President is pleased to make the following appointments:—

## ARMY POSTAL SERVICE

## TEMPORARY COMMISSION

The undermentioned JCOs of the Army Postal Service Corps are granted temporary commission (on probation) with effect from the dates noted against each in the rank of Lieutenant under AI 29/85. Their temporary commission (on probation) is confirmed from the date consequent on the completion of the period of probation:—

Nb Sub R Sanjay (JC-834442M now TC-31569H Lt.), 04 Jul 2005

Sub RA Jaiswal (JC-834262K now TC-31570X Lt.), 04 Jul 2005

Sub GB Behara (JC-834295P now TC-31571A Lt.), 04 Jul 2005

Nb Sub Chetan Anand (JC-834515N now TC-31572H Lt.), 04 Jul 2005

Nb Sub Jagdeep Sheoran (JC-834528L now TC-31573L Lt.), 04 Jul 2005

Nb Sub S Manikandan (JC-834513H now TC-31574N Lt.), 04 Jul 2005

PRADEEP KUMAR  
Under Secy.

No. 225, dated 17th April 2007—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended.

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Capt on probation)

Capt Mayanglambam Amitkumar (MS-14476X), AMC, 19 Dec 2002

Capt Dharmendra Prasad Singh (MS-14502N), AMC, 28 Feb 2002

Capt Mohd Rasheed (MS-14583Y), AMC, 15 Mar 2003

Capt Sharma Amit Munshi (MS-14590P), AMC, 20 Mar 2003

Capt Vinod Kumar S V (MS-14889F), AMC, 05 Oct 2004

Capt Sanjeev Samyal (MS-15077A), AMC, 17 May 2005

Capt Anupam Pareek (MS-15112X), AMC, 16 Dec 2005

Capt Satish Barki (MS-15113A), AMC, 16 Dec 2005

Capt Manoj M G (MS-15114H), AMC, 16 Dec 2005

Capt Suman Vyas (MS-15118Y), AMC, 16 Dec 2005

Capt Kamal Kumar (MS-15119F), AMC, 16 Dec 2005

Capt Advitya Sangwan (MS-15121Y), AMC, 16 Dec 2005

Capt N Shankar Ganesh (MS-15132L), AMC, 16 Dec 2005

Capt Jagdeepak Gill (MS-15150N), AMC, 16 Dec 2005

Capt Shailza Chaudhary (MS-15151W), AMC, 16 Dec 2005

Capt Prabhu Desai Padmini Sandeep (MS-15156P), AMC, 16 Dec 2005

Capt Rahul Jain (MS-15154K), DOC, 16 Dec 2005

With seniority for pay and promotion from 16 Dec 2002 (this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Mohd Tabrez Alam (MS-15133N), DOC, 16 Dec 2005

With seniority for pay and promotion from 16 Dec 2003 (this includes 24 months antedate for Diploma in Anaesthesiology which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Teli Prabhakar Tammanna (MS-14894M), DOC, 05 Oct 2004

With seniority for pay and promotion from 05 Oct 2001 (this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (P.S.M.) which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Madhukar Haribhau Kamble (MS-14891Y), DOC, 05 Oct 2004

With seniority for pay and promotion from 05 Oct 2001 (this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Sreedhar K (MS-14644L), DOC, 10 Feb 2003

With seniority for pay and promotion from 10 Feb 2001 (this includes 24 months antedate for Diploma in Oto-Rhino-Laryngology (D.L.O.) which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification on 08 Dec 2005 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Narendra K Jha (MS-14597Y), DOC, 31 Mar 2003

With seniority for pay and promotion from 30 Sep 2002 (this includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Narayane Vijaya Pralhad (MS-14773L), DOC, 17 Feb 2004

With seniority for pay and promotion from 17 Feb 2001 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery (E.N.T.) which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 Years under AI 75/78 as amended.

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt. on probation

Lt. Sudhir Kumar (MS-15092P), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Manoj Kumar (MS-15093X), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Anup Kumar (MS-15095H), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Varun Jairth (MS-15096L), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Saurabh Vashishth (MS-15097N), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Brijesh Narayan (MS-15098W), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Kartik Kohli (MS-15099Y), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Nitin Nagpal (MS-15100H), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Uma Shanker Gupta (MS-15101L), AMC, 29 Oct 2005

Lt. Vishvendu (MS-15268P), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Sudeep Kumar (MS-15269X), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Ashish Bondia (MS-15270M), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Binit Kumar (MS-15271P), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Sachin Chourasia (MS-15272X), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Himanshu Sharma (MS-15273A), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Vikash Kumar (MS-15274H), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Rajesh War Bhati (MS-15292L), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Dimple Kumari (MS-15293N), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Soumya Darshan Sanyal (MS-15294W), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Anuj Aggarwal (MS-15295Y), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Manisha Roy (MS-15296F), AMC, 13 Mar 2006

Lt. Himanshu (MS-15297K), AMC, 13 Mar 2006

The President is pleased to make the following appointments under AI 40/73 with effect from 07 Apr 2006, in AMC/SSC (Non Tech) :—

# REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lt wef 07 Apr 2006 (On Probation)

Sub/NT Bharat Kumar Sharma (JC-693436M now NTS-17526H), 07 Apr 2006

(Seniority for Pay only will reckon with effect from 07 Apr 2004)

Sub/NT Asoke Kumar Saha (JC-693509N now NTS-17527L), 07 Apr 2006

(Seniority for Pay only will reckon with effect from 07 Apr 2004)

Hav/Clk Subhash Ram (No. 13982363K now NTS-17528N), 07 Apr 2006

Hav/Clk Avinash P Bhale Rao (No. 13969979Y now NTS-17529W), 07 Apr 2006

Hav/NA Jayarajan OK (No. 13960360W now NTS-17530L), 07 Apr 2006

Hav/Pharm Ratheesan Nair N (No. 13978318A now NTS-17531N), 07 Apr 2006

NK/ORA John Baby (No. 13974229K now NTS-17532W), 07 Apr 2006

NK/LA Avhad Jayadeo Khande Rao (No. 13984131K now NTS-17533Y), 07 Apr 2006

NK/Pharm Nagendra Kumar Tripathi (No. 13993847K now NTS-17534F), 07 Apr 2006

NK/SKT Harsverdhan (No. 13991503M now NTS-17535K), 07 Apr 2006

NK/SKT Prasad M Kurup (No. 13992457P now NTS-17536M), 07 Apr 2006

NK/Clk Shijimon Mathew (No. 13997903P now NTS-17537P), 07 Apr 2006

NK/Pharm Amar Nath Rai (No. 13998601P now NTS-17538X), 07 Apr 2006

Sep/BTA Amit Singh (No. 13987845H now NTS-17539A), 07 Apr 2006

Sep/STA PG Vinayagan (No. 13991652A now NTS-17540P), 07 Apr 2006

Sep/NA Anup Bisht (No. 13992024X now NTS-17541X), 07 Apr 2006

Sep/BTA Santhosh CH (No. 13995293P now NTS-17542A), 07 Apr 2006

Sep/LA Ram Krashan Pratap Singh Sisodiya (No. 13998900N now NTS-17543H), 07 Apr 2006

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 07 Apr 2006, in AMC/PC (Non Tech) officers:—

# REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lt wef 07 Apr 2006 (On Probation)

Sub/NT Chaman Singh Shishodia (JC-693739F now NTR-17734L), 07 Apr 2006

(Seniority for Pay only will reckon with effect from 07 Apr 2004)

Hav/HA Manohar Singh Mehra (No. 13965072N now NTR-16735N), 07 Apr 2006

Hav/HA Ram Pal (No. 13972566A now NTR-16736W), 07 Apr 2006

Hav/Pharm M Santhosh Kumar (No. 13978117F now NTR-16737Y), 07 Apr 2006

Hav/ORA Hardat Singh Kaswan (No. 13972364Y now NTR-16738F), 07 Apr 2006

NK/Pharm Mahesh Kumar Yadav (No. 13990208X now NTR-16740Y), 07 Apr 2006

NK/Clk Vinod Kumar (No. 13993576X now NTR-16741F), 07 Apr 2006

NK/NA Shiva Kumar K (No. 13981838W now NTR-16742K), 07 Apr 2006

NK/Pharm Mahendra Kumar Vishwakarma (No. 13995915L now NTR-16743M), 07 Apr 2006

Sep/PNA Wagh Subhash Chandra Bhan (No. 13984276P now NTR-16744P), 07 Apr 2006

Sep/PTA Parasu Ramulu Pilla (No. 13988092N now NTR-16745X), 07 Apr 2006

Sep/PTA Krishna Rao Duba (No. 13990892O now NTR-16746A), 07 Apr 2006

Sep/BTA Bhaskar Kumar Singh (No. 13992203X now NTR-16747H), 07 Apr 2006

Sep/STA Mukesh Kumar (No. 13993008M now NTR-16748L), 07 Apr 2006

Sep/PTA Chandrashekaraiiah N (No. 13997538Y now NTR-16749N), 07 Apr 2006

The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt on probatiom

Flt Lt Shiv Narayan Panda (MS-15175A), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Preeti Misra (MS-15184F), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Ravi Kumar Sharma (MS-15303M), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Jesy Varghese (MS-15172M), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Apoorv P Bajpai (MS-15179W AF-28401H), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Sanjay Kumar Srivastava (MS-15183Y AF-28406), AMC, 16 Dec 2005

To be Flt Lt

Flt Lt Atul Kumar Singh (MS-15085Y AF-28382H), DOC, 25 Jul 2005 With seniority for pay and promotion from 25 Jul 2002 (this includes 36 months antedate for PG Degree (Master of Surgery), which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Rahul Sud (MS-14886N AF-27660), DOC, 28 Sep 2004 With seniority for pay and promotion from 28 Sep 2002 (this includes 24 months for PG Diploma in Oto-Rhino Laryngology).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 Years under AI 75/78 as amended:—

### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Fg Offr on probation

Fg Offr Arpita Jain (MS-15248F), AMC, 13 Mar 2006.

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAFMS (Pers) ✓

No. 226, dated 17th Apr 2007.—The President is pleased to make the following appointments:—

### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 10 June 2006

✓ The undermentioned Gentlement Cadets of 118 Regular Course (118 DE, 108 Ex NDA and 85 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Jun 2006 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78) read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC No., Name and Arm/Service

67883F Ashish Singh Mehta, Inf

67884K Satyadeep Dhanda, Engrs

67885M Bhawani Singh, AAD

67886P Pawan Kumar Mishra, Mech

67887X Vinay Yadav, Inf

67888A Akhil Gupta, Arty

✓ 67889H Atul Kumar, Arty

67890X Sandeep Kumar, Inf

67891A Ravi Rajan, Arty

67892H Krishna Kabir, AOC

67893L Siddharth Rao, Inf

67894N Vishal Prakash, EME

67895W Gurpreet Singh, Inf

67896Y Parikshit Sharma, Inf

67897F Bipin, Inf

67898K S D Ashok, Inf

67899M Sunil Kumar Tiwari, AC

67900W Jitender Nehra, ASC

67901Y Devendra Negi, Inf

67902F Samir Talwar, Inf

67903K Abhimanyu Azad, Int

67904M Manjul Kafaltiya, Inf

67905P Ritesh Kumar, Inf

67906X Aditya Sood, AAD

67907A Saurabh Kumar Mishra, Inf


67908H Amit Deswal, Arty

67909L Subhash Pachar, Inf

67910A Ramkesh Singh ASC

67911H	Mayank Pratap Singh, Inf	67950F	Akhilesh Pillai, Arty
67912L	Yashdeep Bodwadkar, AAD	67951K	Avinash Singh, Inf
67913N	Navendu Kumar, Arty	67952M	Sameer Negi, Arty
67914W	Charanpreet Singh, Sigs	67953P	Alok Mehta, Inf
67915Y	Vaibhav Attri, AC	67954X	Ajay Kumar, Inf
67916F	Parthasarathi Khastgir, Inf	67955A	Pawan Singh, Inf
67917K	Nishi Kant Srivastava, Arty	67956H	Ravi Sharma, Inf
67918M	Ranvijay Kumar, Inf	67957L	Sandeep Verma, Arty
67919P	Rajeev Dwivedi, Inf	67958N	Sandeep Singh Kajla, Int
67920K	Javed Ahmed, Arty	67959W	K A Visakh, Arty
67921M	Kirpal Singh, Inf	67960L	Amit Sudan, AC
67922P	Appar Bisht, Arty	67961N	Rahul Thakur, Inf
67923X	Ashyam Vaiphei, AOC	67962W	Ankur Agarwal, AAD
67924A	Joydeep Bhattacharya, AAD	67963Y	Mayur Datta, Sigs
67925H	Rakesh Mishra, Int	67964F	Rajiv Ranjan Mallik, AOC
67926L	Aman Sharma, Mech	67965K	Madhur Vidwans, EME
67927N	Kapil Saraswat, Arty	67966M	Johny Malik, Inf
67928W	Ghanendra Yadav, Int	67967P	Dhruv Abrol, Mech
67929Y	Deep Pradhan, Inf	67968X	Sachin Rawat, Engrs
67930N	Sunil suresh Pawar, Inf	67969A	Surinder Singh Yadav, Inf
67931W	Anupam Ashok, Engrs	67970P	Sonam Topke, Inf
67932Y	Om Narayan, Arty	67971X	Ravi Pant, AOC
67933F	Madhav Dubey, EME	67972A	Ranvijay Singh Pathania, AC
67934K	J U Satyanarayan, Arty	67973H	Kuldeep Kumar Dabral, Inf
67935M	Dhruv Bali, AC	67974L	Neeraj Mehta, Inf
67936P	Harshdeep K Gehlot, Inf	67976W	Hemand Raj R, Inf
67937X	Abhiruchi Parihar, AAD	67977Y	Ravi Shankar Kaushik, Engrs
67938A	Pramod Kumar Bhakta, Inf	67978F	Vishal Singh, AC
67939H	Sreejaesh Tanwar, Inf	67979K	Naveen Ahlawat, Inf
67940X	Sunil Kumar Shukla, AAD	67980Y	Sunil Vimal, Arty
67941A	Vinay Bhuddi, AOC	67981F	Vivek Seth, Inf
67942H	Himanshu Goula, Arty	67982K	Pankaj Bisht, AC
67943L	Sandeep Singh, Inf	67983M	Rachak Tyagi, AOC
67945W	Sanjeev Kumar Sahoo, EME	67984P	Potdar Abhishek Satish, Inf
67946Y	Anil Kumar Yadav, Mech	67985X	Saurabh Kumar Rai, Engrs
67947F	Himanshu Thapa, Sigs	67986A	Polemang, Inf
67948K	Nishant Pathak, Arty	67987H	Vishal Gurung, Engrs
67949M	Gagandeep Singh, Inf	67988L	Kailash Rana, ASC

67989N	Sushil Kumar, Inf	68028Y	Gontla Naga Venkata Satya Vijay, AAD
67990H	Puneet Chauhan, Inf	68029F	Vivek Kumar Ahlawat, Mech
67991L	P Zoheb, Mech	68030W	Dhruv Raj Sirohi, Inf
67992N	Avinash Balasaheb Mogal, Arty	68031Y	MD Bahzad UR Rahman, AAD
67993W	Balkrishna Pandurang Patil, Arty	68032F	Raj Kumar Pikky Singh, Inf
67994Y	Rohit Joon, AC	68033K	Pradeep Singh, ASC
67995F	Ravi Chaudhry, AAD	68034M	Janmeet Singh Sodhi, Arty
67996K	Devdatta Bhausaheb Temkar, Inf	68035P	Saurabh Chamoli, Arty
67997M	Shakti Brata Rath, AAD	68036X	Nilesh Bisht, Inf
67998P	Mridul Teotia, EME	68037A	Pawnikar Abhijit Ajay, Arty
67999X	Renukraj Nesur, AOC	68038H	Rajesh Bhat, Sigs
68000Y	Sunny Ghosh, AC	68039L	Khem Singh Rawat, Arty
68001F	Shalabh Madhur, Arty	68040A	Puneet, Inf
68002K	Sudhanshu Samuel Ekka, Arty	68041H	Sanket Tiwari, AOC
68003M	Ranveer Singh, Inf	68042L	Anupam Kaushik, Inf
68004P	Pritish Gantayat, Engrs	68043N	Amit Kumar Singh, Inf
68005X	Ashish Saurabh Sharma, Inf	68044W	Kobitirtha Sanyal, Inf
68006A	Ajjagutta Narendra Reddy, Arty	68045Y	Khoainajam John Meitei, Inf
68007H	Prateeq Misra, ASC	68046F	Abhinav, Arty
68008L	Kunduru Murali Mohan Reddy, Arty	68047K	C G L N Skanda Kumar, Arty
68009N	Sunil Soni, Inf	68048M	Kapil Yadav, ASC
68010H	Nikhil Pandey, Arty	68049P	Yogendra Bharat Jadhav, Inf
68011L	Robin K Mathai, Inf	68050K	Varun Singh, AAD
68012N	Robin Mathew, AC	68051M	Chanchal Banerjee, Inf
68013W	Dipankar Sharma, AAD	68052P	Saket Naraian Uniyal, Arty
68014Y	Abhishek Singh Charak, Inf	68053X	Abhijit Kumar Singh, Inf
68015F	Ambekar Amey Laxmikant, Sigs	68054A	Nitish Passi, ASC
68016K	Jitendra Singh Mehta, Arty	68055H	Shanu Krishna, Inf
68017M	Chaudhary Pushkar Vijay, Inf	68056L	Mario Lauro, EME
68018P	Nishant Pandey, Inf	68057N	Kunal Sahni, Inf
68019X	Ajay Singh, AC	68058W	Mahendra Singh Jhaghariya, AOC
68020M	Sunil Bisht, Arty	68059Y	Vipan Kumar Rana, Inf
68021P	Ashish Dhyani, Engrs	68060N	D Santhosh, Inf
68022X	Vikrant Singh, AC	68061W	Anupam Dixit, Sigs
68023A	Vineet Devdas, Engrs	68062Y	Chetan Kumar, Arty
68024H	Ravi Shukla, AOC	68063F	Ashutosh Nautiyal, Inf
68025L	Patil Abhijeet Bhaskarrao, Inf	68065M	Yogesh Upadhyay, Inf
68026N	Nirmal Upreti, Arty	68066P	Sumit Dabral, Inf
68027W	Ganesh Shankar Vidyarthi, Inf	68067X	Gaurav Kumar Singh, Inf

68068A	Bhajan Lal Saini, AAD	68107N	Kapil S Asra, Arty
68069H	Ashok Kumar Mohanta, AC	68108W	Rohit Johri, AAD
68070X	Rohit Sahay, EME	68109Y	Mahabir Singh Rawat, Inf
68071A	Felix Joseph Gregory, Arty	68110N	Ajit Kumar Sharma, Inf
68072H	Gaurav Singh, Inf	68111W	Pushkar Kaushik, Engrs
68073L	Shariq Ullah, ASC	68112Y	Ritwik Patjoshi, Arty
68074N	Gaurav Upadhyaya, Arty	68113F	Shekhar Arora, ASC
68075W	Sandeep Katoch, Arty	68114K	Puneet Sushil, AC
68076Y	Bijendra Singh Rathore, AAD	68115M	Nimit Agarwal, Inf
68077F	Ullas Badoni, Inf	68116P	Kunal Kumar, EME
68078K	Rajwinder Singh, Sigs	68117X	Shashank Tripathi, Inf
68079M	Sourabh Saxena, Arty		Pankaj Kumar Ojha, Sigs
68080F	Shanglakpam Bijon Kumar Sharma, Inf	68119H	Ankit Bagwari, Inf
68081K	V S Pandya, Arty	68120X	Vinay Varshney, Arty
68082M	Ravikant Tiwari, Engrs	68121A	Vikram Chuhan, Inf
68083P	Dheeraj Bharti, AAD	68122H	Yash Aditya
68084X	Prasoon Srinet, AOC	68123L	Vikram Narayana H R, Arty
68085A	Sampathkumar A Patil, Engrs	68124N	Satyendra Singh, Inf
68086H	Chirag Panwar, AC	68125W	Jintendra Singh, Int
68087L	Deepak Raj, Arty	68126Y	Harendra Pratap Singh, Arty
68088N	Neeraj Joon, Mech	68127F	Rahul Singh, Inf
68089W	Siddarth Shekhawat, Engrs	68128K	Randhir Kumar Yadav, AOC
68090L	Pandey Pragnesh Anandkishore, AC	68129M	Sushant Sharma, AC
68091N	Amit Mohan, AC	68130F	Alok Kumar Singh, EME
68092W	Anshuman Singh Chandel, Arty	68131K	Raghuvendra Kumar, Inf
68093Y	Vineet Sharma, Inf	68132M	Sunil Kumar, Inf
68094F	Bhargav Gajanan Abhyankar, Inf	68133P	Vishal Sharma, Arty
68095K	Nilesh Tiwari, Inf	68134X	Manoj Giri, Inf
68096M	Rajdeep Singh Pathania, AOC	68135A	Amit Kumar Singh Parihar, Inf
68097P	Shreem Kapil, Inf	68136H	Saurabh Gupta, AAD
68098X	Gunjan Pathak, Inf	68137L	Shankar Singh Bhandari, Inf
68099A	Borlongki Bey, Inf	68138N	Vinod Kumar Sharma, Engrs
68100K	Anand Bohra, Inf	68139W	Harshit Chhabra, Mech
68101M	Rajinder Singh, Inf	68140L	Singhrao Vikramaditya, Engrs
68102P	Nitin Sharma, Inf	68141N	Gaurav Manon, AOC
68103X	Prashant Thakur, AAD	68142W	Yashvardhan Singh, Inf
68104A	Gopal Singh, Inf	68143Y	Aishwarya Pandey, Inf
68105H	Sukrut Patel, Arty	68144F	Nishit Kashyap, Inf
68106L	Varun Pathaur, Inf	68145K	Abhishek Swain, Inf

68146M	Anup Sagar Dash, Inf	68187W	Vipin Nagar, Inf
68147P	Arun Sharma, Int	68188Y	Antony Paresh M, Inf
68148X	Sarthak Kumar Mohapatra, Arty	68189F	Amandeep Singh, Int
68149A	Jasbir Singh, ASC	68190W	Somendra Sain, Inf
68150P	Harsh Choudhary, AAD	68191Y	Shashank, AC
68151X	Anshuman Narayan, Arty	68192F	Anuj Heer Kumar, Sigs
68152A	Soumya Ranjan Pradhan, Arty	68193K	Ignatius Rahul Branger, Inf
68153H	Amit Kumar, Inf	68194M	Chander Singh Aswal, Engrs
68154L	Pratul Kumar, Inf	68195P	Arvind, Inf
68155N	Ashish Ranjan, AOC	68196X	Indrajit Ghosh, Arty
68156W	Puneet Katria, Arty	68197A	Vidyut Mahato, Engrs
68157Y	Raju Ansari, Arty	68198H	Akhil Sharma, Inf
68158F	Vikram Kundu, AOC	68199L	Sandeep S Menon, Arty
68159K	Tarun Sharma, Sigs	68200P	Abhishek Shahi, AC
68160Y	Ajay Nautiyal, AAD	68201X	S Venkatraman, AOC
68161F	G Vijaya Ranjan, Inf	68202A	Mehta Parth Arvindbhai, AAD
68162K	Ashish Srivastava, Inf	68203H	Jay Singh, AAD
68163M	Sunil Singh, Inf	68204L	Santosh Kumar Roy, Arty
68164P	Anshuman Narayan Prasad, Arty	68205N	Gagandeep Singh Randhawa, Arty
68165X	Piyush Kher, Engrs	68206W	Manitaabh Saran, AC
68166A	J Ajay, Inf	68207F	Deepak Laxman Rao Sarode, Arty
68167H	Ravikiran Padamchand Belkire, Mech	68208F	Amit Udhav Nikam, Mech
68168L	Rishi Kaushik, EME	68209K	Mohnish Kumar, Inf
68169N	Madhur Thapa, Inf	68210Y	Tejasvi Singh Rana, Int
68170H	Kapil Verma, AAD	68211F	Abhishek Mishra, Arty
68171L	Santosh Chand Rawat, Inf	68212K	Rajeev Singh, Inf
68172N	Bablu Mukherjee, Arty	68213M	Ashutosh Srivastava, ASC
68173W	Shrikant Jethi, Int	68214P	Mahesh Arjyal, Mech
68174Y	Uday Badhani, Inf	68215X	Kanu Sharma, Arty
68176K	Sudarshan Singh, Arty	68216A	Navneet Sawhney, Arty
68177M	Devesh Dubey, AAD	68217H	Bhagwat Mahesh Mukund, Arty
68178P	Vikrant Singh, ASC	68218L	K Varun Varma, Inf
68179X	Oinam Akash Singh, Inf	68219N	Anirudh Singh, AC
68180M	Prakash Bhatt, Arty	68220H	Niladri Roy, EME
68181P	Ritesh Kumar Pandey, Arty	68221L	Piyush Dutt, AOC
68182X	Deepak Dubey, Inf	68222N	Nandan Kumar Singh, Inf
68183A	Vikrant Pande, Inf	68223W	Jadhav Digvijay Sureshrao, Inf
68184H	Vivek Rautela, AOC	68224Y	Manoj Kumar, Arty
68185L	Madhusudan Bhandari, Int	68225F	Kuldeep Singh, Inf
68186N	Sushil Chandra, EME		



68226K Jawahar Singh, Inf  
 68227M Naik Rajas Sudhir, Inf  
 68228P Rana Sundeep Premchand, Int  
 68229X Neeraj Kumar Singh, Inf  
 68230M M C Ashish Chinnappa, Engrs  
 68231P Rahul Mishra, Arty  
 68232X I Anand, AC  
 68233A Arjun Singh, Inf  
 68234H Shubham Ranjan Srivastava, Sigs  
 68235L Mukul Bansal, AAD  
 68236N Arun Kumar, Arty  
 ✓ 68237W Bipin Chandra Pandey, AOC  
 68238Y Vinay V Nadkarni, AC  
 68239F Kshitiz Bhardwaj, Inf  
 68240W Vaibhav Gupta, Arty  
 68241Y Vijay Nand, Arty  
 68242F Ashish Thakur, Inf  
 68243K Anjani Jha, Arty  
 68244M Uma Shankar Dandriyal, AOC  
 68245P Kedar Singh Bisht, Mech  
 68246X C Deepak, Arty  
 68247A Khan Anwar Nashir A Khan, Int  
 68248H Prashant Baloni ASC  
 68249L Aseem Sood, Arty  
 68250A Kishan Bal P, Inf  
 68251H Kundan Singh, Inf  
 68252L Vikas Kumar Singh, Inf  
 68253N Nithin T M, AC  
 68254W Arnap Chowdhury Arty  
 68255Y Himanshu Sekhar Paul, Inf  
 68256F Balendumauli K Prasad, AAD  
 68257K Rotithor Amit Ganesh, Engrs  
 68258M Simran Sharma, EME  
 68259P Prince Rohit, Inf  
 68260K Neeraj Sharma, ASC  
 68261M Nikhil Sharma, AAD  
 68262P Sanjeet Bhatt, Arty  
 68263X Santosh Prakash Jagtap, Sigs  
 68264A Kshirsagar Mayur Makarand, AC

68265H Laxman Singh Rana, Sigs  
 68266L Manish Chaturvedi, Arty  
 68267N Varis Pratap Singh, inf  
 68268W Abhishek Kukreti, Arty  
 68269Y Arun Kumar Rana, Inf  
 68270N Sambit Das, Int  
 68271W Kapil Verma, Int  
 68272Y Virendra Singh, AAD  
 68273F Jaswant Singh Solanki, Inf  
 68274K Gaurav Pathak, Inf  
 68275M Navdeep Singh, Arty  
 68276P Ankur Paratap, Inf  
 68277X Akshay Joshi, AOC  
 68278A Kaushtubh Tyagi, Arty  
 68279H Manav Khullar, AC  
 68280X Dharmendra Bahadur Singh, Inf  
 68281A Pratyush Mishra, Inf  
 68282H Ankur Sharma, ASC  
 68283L Sumit Kumar Paurel, Arty  
 68284N Soumendra Dey, Arty  
 68285W Subeg Singh Dhindsa, EME  
 68286Y Bhavesh Dhankar, Arty  
 68287F K Digvijay Singh, AAD  
 68288K Mukesh Pawar, Inf  
 68289M Shakti Singh Rathore, Int  
 68290F Alok Kumar, Arty  
 68291K Abhinav Bose, Mech

CHANDER SHEIKHAR

 Lt. Col.  
 AMS 8B

## (ARMY BRANCH)

No. 227, dated 14 Apr 2007—The President is pleased to re-employ the under mentioned JCOs on active list in the rank and date specified.

## REGULAR ARMY

## DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Major Bhag Singh (JC-176411F), Formerly The Mahar Regt, 07 Jan 2006

## In the rank of Subedar (GD)

Sub Dilbag Singh (JC-578093P), Formerly The JAK Rif,  
07 Jan 2006

Sub Gurmej Singh (JC-578512F), Formerly The JAK Rif,  
07 Jan 2006

Sub Devendra Singh (JC-528443A), Formerly The  
Garhwal Rif, 08 Apr 2006

Sub Bahadur Singh (JC-538460N), Formerly The Kumaon  
Rif, 08 Apr 2006

## In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Balap Singh (JC-528487X), Formerly The  
Garhwal Rifles, 07 Jan 2006

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-579000F), Formerly The JAK  
Rifles, 07 Jan 2006

Nb Sub Mathra Dass Raina (JC-579260M), Formerly The  
JAK Rifles, 08 Jan 2006

Nb Sub Dibara Singh (JC-508306A), Formerly The Sikh  
Regt, 08 Apr 2006

Nb Sub Joginder Singh (JC-518897A), Formerly The  
Dogra Regt, 10 Apr 2006

Nb Sub Jaganath Patnaik (JC-558039A), Formerly The  
Bihar Regt, 08 Oct 2005

Nb Sub Dev Raj (JC-578872X), Formerly The JAK Rifles,  
08 Apr 2006

## In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Major Shyam Phool (JC-204095M), Formerly The  
Jat Regt, 09 Apr 2006

## In the rank of Subedar (GD)

Sub Jagdish Singh (JC-164511A), Formerly The Raj  
Rifles, 08 Jan 2006

Sub Surjit Singh (JC-428498P), Formerly The Punjab  
Regt, 08 Apr 2006

Sub Madan Ram Sharma (JC-201177K), Formerly The  
JAK LI, 08 Apr 2006

## In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Prakash Chand Azad (JC-518547N), Formerly  
The Dogra Regt, 09 Apr 2006

✓ PRADEEP KUMAR  
Under Secy

## (ARMY BRANCH)

No. 228, dated 12 Apr 2007—The President is pleased to  
make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## (Armoured Corps)

## To be Nb Ris

Dfr Lokhade Sambhaji Bhimrao (No. 01072578P now  
JC-241920W), 14 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Ghar Ram (No. 01074657H now JC-241952Y),  
26 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Milap Chand (No. 01074836H now JC-241953F),  
26 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Ravindra Singh (No. 01077146K now JC-241959H),  
06 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Vidya Sagar (No. 01075000X now JC-241962H),  
01 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Ami Lal Jat (No. 01078400P now JC-241974X),  
06 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Subhash Singh (No. 01078690X now JC-241975A),  
20 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Dev Raj (No. 01074096Y now JC-241990P), 15 Dec  
2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Bir Singh (No. 01075687M now JC-241991X),  
12 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Narayan Chandra Ghosh (No. 01071873L now JC-  
241992A), 27 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Katuru Palsudhakar (No. 01068147L now JC-  
241993H), 19 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006  
without effect on pay and allowances).

Dfr Yelam Janardhana Rao (No. 01073180M now JC-241994L), 29 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Karna Ram Jakhar (No. 01075240P now JC-241995N), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Lakshi Kanta Gogoi (No. 01075962F now JC-241996W), 09 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Madnan Pillai S (No. 01075432M now JC-241997Y), 26 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajendra Prasad (No. 01073667A now JC-241998F), 29 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Pratap Singh Rana (No. 01077437K now JC-242000L), 22 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Mehar (No. 01076385M now JC-242002W), 22 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ananda Rao Kode (No. 01070167X now JC-242004P), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bijoy Kumar Borah (No. 01075955L now JC-242005K), 09 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Suram Chand (No. 01074838N now JC-242006M), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Nandeshwar Singh (No. 01072552A now JC-242007F), 27 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Khude Raja Ram (No. 01073132M now JC-242008X), 27 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Karuna Kanta Deka (No. 01073165X now JC-242009A), 27 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Maniraj Singh (No. 01079266F now JC-242014L), 19 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Suresh Ghising (No. 01076223F now JC-242016W), 14 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Satbir Singh Beniwal (No. 01076148H now JC-242018F), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajvir Singh (No. 01074571K now JC-242019K), 12 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Lal (No. 01077954P now JC-242001N), 16 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr R Thothapuri Naidu (No. 01071749K now JC-241878H), 01 Sep 2006

Dfr Gyan Bhaskar Sarma (No. 01073110N now JC-241879L), 01 Sep 2006

Dfr Rabindra Kumar Mohanty (No. 01073055H now JC-241986M), 02 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Manvendra Partap Singh (No. 01081825Y now JC-241987P), 28 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhvinder Singh (No. 1546516H now JC-241999K), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Gopal Lal Sharma (No. 01073815A now JC-242003Y), 28 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kala Ram (No. 01075846Y now JC-242010P), 05 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhwinder Raj (No. 01075845W now JC-242011X), 05 Jan 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rameshwar Lal Jat (No. 01074897A now JC-242012A), 15 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Pal (No. 01078431P now JC-242015N), 28 Dec 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Shiv Lal (No. 01075004N now JC-242021F), 01 Jan 2007

Dfr G Priya Dhojo Singh (No. 01073414L now JC-242028L), 01 Jan 2007

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 229, dated 13th Apr 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Manoharan Chakiar Kandi (JC-184943W), 01 Dec 2006

Sub KP Chandra Sekharan Nair (JC-126384M), 01 Jan 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Om Prakash Soni (JC-166605W), 01 Apr 2006

Nb Sub Bir Singh Dogra (JC-578879F), 01 Sep 2006

Nb Sub Raghunath, SM (JC-226166H), 01 Sep 2006

Nb Sub Shyam Singh Rathore (JC-840961L), 01 Nov 2006

Nb Sub Kannappan A (JC-168514L), 01 Nov 2006

Nb Sub Hari Singh (JC-236374L), 01 Dec 2006

Nb Sub Raj Narayan Singh (JC-558372Y), 01 Dec 2006

Nb Sub Hatam Khan (JC-588012X), 01 Dec 2006

Nb Sub Krishan Lal (JC-142146K), 01 Jan 2007

Nb Sub Mohan Chandra Nath (JC-840977W), 01 Jan 2007

Nb Sub Thankachan D (JC-840983K), 01 Jan 2007

Nb Sub Manicka Bakkiya Nathan (JC-840984K), 01 Jan 2007

Nb Sub Durgaman Gharti I (JC-841018M), 01 Jan 2007

Nb Sub Lachhman Dass (JC-841019P), 01 Jan 2007

Nb Sub Beant Singh (JC-841020K), 01 Jan 2007

#### REMOUNT AND VETERINARY CORPS

To be Nb Ris

Promotions of the following NCOs to Nb Ris:—

Dfr/Clk Rajendra Nath Pandey (No. 7239259X now JC-797391K), 01 May 2006

Dfr/DSR Mohinder Singh (No. 7239367F now JC-797392M), 01 May 2006

Dfr/DSR Ram Sewak (No. 7239388X now JC-797339P), 01 May 2006

Dfr/DSR Biswa Nath Jena (No. 7239270W now JC-797394X), 01 May 2006

Dfr/RDR Devnarayan Thakur (No. 7239347M now JC-797395A), 01 May 2006

Dfr/DSR Kaliyan Singh (No. 7239434F now JC-797396H), 01 Jun 2006

Dfr/DSR Upendra Nath Chaubey (No. 7239435K now JC-797397L), 01 Jun 2006

Dfr/ADT Vijay Kumar N (No. 7239155W now JC-797398N), 01 Aug 2006

Dfr/ADT Ram Shankar (No. 7239215A now JC-797399W), 01 Aug 2006

Dfr/ADT Rohtash (No. 7239229A now JC-797400A), 01 Sep 2006

Dfr/DSR Bhaskar Bansi Kharat (No. 7239422M now JC-797401H), 01 Oct 2006

Dfr/DSR Ram Prasad (No. 7239379W now JC-797402L), 01 Oct 2006

Dfr/FARR Raghbir Singh (No. 7238852K now JC-797403N), 01 Oct 2006

Dfr/RDR Hoshiar Singh (No. 7239876A now JC-797404W), 01 Oct 2006/01 Feb 2006\*

\*(Gtd Ante Date Seniority)

Dfr/DSR Jai Shri Pal (No. 7239400N now JC-797405Y), 01 Jun 2006

Dfr/FARR Mohinder Singh (No. 7238868P now JC-797406F), 01 Dec 2006

Dfr/ADT Trinath Bai (No. 7238752Y now JC-797407K), 01 Dec 2006

Dfr/ADT Someshwar Borah (No. 7239312X now JC-797408M), 01 Jan 2007

Dfr/ADT Vindeshwari Prasad (No. 7239122L now JC-797409P), 01 Jan 2007

Dfr/RDR Raj Pal Singh (No. 7240715K now JC-797410K), 31 Oct 2006/01 Nov 2005\*

\*Gtd Ante Date Seniority

Dfr/DSR Musafir Ram (No. 7238869Y now JC-797411M), 01 Jan 2007

Dfr/DSR Rama Shanker Yadav (No. 7238903M now JC-797412P), 01 Feb 2007

Dfr/DSR Sarwesh Kumar (No. 7239299Y now JC-797413X), 01 Feb 2007

Dfr/DSR R Arokiya Swamy (No. 7239429W now JC-797414A), 01 Feb 2007

Dfr/ADT Sitar Ram Soni (No. 7239204N now JC-797415H), 04 Feb 2007

PRADEEP KUMAR

Under Secy.

No. 230, dated 13th Apr 2007—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against his name:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt. Col to be Col (TS)

Lt. Col Subhash Chand (V-335X), RVC, 16 Dec 2004

PRAMA SASTRY

Under Secy.

No. 231, dated 17th Apr 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Lt. Col/Col (TS) to be Col (Selection) & (equivalent)

D S Swaroop (MR-04703Y), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Dec 2005

A P Gupta (MR-04529X), 17 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Dec 2005

Inder Mohan (MR-05945N), 27 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Dec 2005

S K Vohra (MR-04531P), 06 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Dec 2005

R J Prasad (MR-04535L), 11 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Dec 2005

AGR Mahendraker (MR-04537W), 14 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Dec 2005

Ashok Singh (MR-03960K), 15 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Dec 2005

GK Prasad (MR-04425W), 18 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Dec 2005

S D Pathak (MR-03981A), 18 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Dec 2005

V K Srivastava (MR-04186M), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Dec 2005

Devendra Swarup (MR-05348Y), 02 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Dec 2005

S P Rai (MR-05353K), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Dec 2005

K N Tripathi (MR-05851W), 29 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Dec 2005

K V Baliga (MR-04767K), 12 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Dec 2005

P Prusty (MR-04768M), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Dec 2005

R K Mukherjee (MR-04951P), 24 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Dec 2005

R S Vasanthkumar (MR-05437X), 23 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Dec 2005

Vinay Lal (MR-04208A), 14 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Dec 2005

Vinod Garg (MR-04953A), 28 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 Dec 2005

G R Joshi (MR-05172Y), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2006

TVSP Murty (MR-04347K), 24 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2006

G D Bhide (MR-04876W), 03 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Jan 2006

T S Ahluwalia (MR-04954H), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jan 2006

Raymond Raj (MR-04956M), 28 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jan 2006

H S Minhas (MR-05097A), 13 Nov 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jan 2006

H C Pathak (MR-04803K), 14 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jan 2006

A K Dhar (MR-04808H), 22 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jan 2006

Mrs Mukti Sharma (MR-05788M), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jan 2006

Himadri Bal (MR-05109K), 15 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jan 2006

T K Saha (MR-05598A), 18 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Jan 2006

DK Jain (MR-05367K), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Jan 2006

V K Sinha (MR-04598N), 22 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Jan 2006

P S Bhatia (MR-05100P), 20 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Jan 2006

AS Kashyap (MR-04257H), 25 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2006

U K Sharma (MR-04262N), 02 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2006

Sudhir Rai (MR-04265F), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2006

A K Sharma (MR-04267M), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jan 2006

S Rajagopalan (MR-04269X), 10 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jan 2006

AB Khare (MR-04272X), 29 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Jan 2006

D Bahadur (MR-04274H), 08 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Jan 2006

RKS Yadav (MR-04275L), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Jan 2006

RB Deoskar (MR-04285P), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jan 2006

R Arunachalam (MR-04958Y), 14 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Jan 2006

T K Som (MR-05351Y), 24 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Jan 2006

SP Singh (MR-05824M), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Jan 2006

S Bhargava (MR-05463Y), 26 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Jan 2006

V Anand (MR-05104L), 28 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Jan 2006

Col GB Padhiary (MR-05494Y), 04 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Jan 2006

Col Pawanjit Singh (MR-05682A), 18 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Jan 2006

R S Saini (MR-06121X), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Jan 2006

A R Matety (MR-05177X), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Jan 2006

R Harangle (MR-05599H), 20 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Jan 2006

DS Bhakuni (MR-04758H), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2006

D Ramamurti (MR-05646P), 22 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Jan 2006

PS Pokharia (MR-05234N), 08 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Jan 2006

J K Banerjee (MR-04676A), 21 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2006

MR Pant (MR-04801Y), 26 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 31 Feb 2006

A Banerji (MR-04428K), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2006

SS Gill (MR-04429M), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2006

S Chatterjee (MR-05249W), 18 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Feb 2006

RP Singh (MR-05350W), 08 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Feb 2006

RK Sharma (MR-05435M), 01 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Feb 2006

KS Rana (MR-05445W), 17 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Feb 2006

SN Mohanty (MR-05238K), 18 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Feb 2006

WVBS Ramalingam (MR-05239M), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 24 Feb 2006

U B Mishra (MR-05357A), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Feb 2006

A K Pithawa (MR-05680P), 18 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Feb 2006

LC Pandey (MR-05954P), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Feb 2006

JKS Parihar (MR-05441A), 14 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Feb 2006

B V Naresh (MR-07131N), 27 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Feb 2006

P Kumar (MR-05087W), 16 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Feb 2006

S Singh (MR-05648A), 20 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Mar 2006

PK Lahree (MR-04882K), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Mar 2006

A.K. Tiwari (MR-04562P), 29 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Mar 2006

Mrs Sunita Kakkar (MR-04566L), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Mar 2006

Col G Ganguly (MR-04569Y), 22 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Mar 2006

AK Seth (MR-04575M), 24 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Mar 2006

A K Hooda (MR-04576P), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Mar 2006

RN Shukla (MR-04577X), 31 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Mar 2006

AP Radhakrishnan (MR-04580X), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Mar 2006

Nikhil Kumar (MR-04583L), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Mar 2006

Rohit Kumar (MR-04590F), 12 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Mar 2006

AS Randhawa (MR-04591K), 14 Apr 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Mar 2006

K Narayanan (MR-05108F), 10 Apr 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Mar 2006

MN Bhargava (MR-04773X), 17 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10.03.06

Vijay Vadehra (MR-05347W), 27 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Mar 2006

BC Trivedi (MR-05457L), 28 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Mar 2006

SK Mohapatra (MR-05355P), 15 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Mar 2006

R Nangia (MR-04805P), 22 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Mar 2006

Vinod Raghava (MR-05858A), 18 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Mar 2006

S Misra (MR-04870P), 23 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Mar 2006

Mrs V Dutta (MR-05467P), 16 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Mar 2006

APS Bawa (MR-04666W), 19 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Mar 2006

Mrs N Chatterjee (MR-05955X), 23 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

AK Sharma (MR-04927Y), 01 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

S Mozumdar (MR-05958L), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Mar 2006

Achal Kumar (MR-06116M), 20 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

S Bandyopadhyay (MR-04980K), 20 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Mar 2006

MK Saikia (MR-05120H), 01 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

IB Singh (MR-05865W), 25 Apr 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

SM Garg (MR-05802N), 09 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 13 Mar 2006

MS Prakash (MR-04807A), 01 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Apr 2006

SC Karan (MR-05455A), 01 May 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 Apr 2006

RK Shrivastava (MR-05808P), 01 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Apr 2006

RC Das (MR-05452M), 01 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2006

DK Srivastava (MR-05477Y), 01 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 May 2006

A Bajpai (MR-04812L), 16 June 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 May 2006

Gian Chand (MR-5473H), 27 July 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 May 06

NS Wilkhoo (MR-05003X), 01 Jun 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 May 2006

DK Khare (MR-06178M), 11 Jul 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2006

H Kumar (MR-05432Y), 04 Sep 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 June 2006

JD Mukherji (MR-04885X), 01 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jun 2006

Mrs R Lakhtakia (MR-04721F), 01 Aug 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 June 06

S Kapoor (MR-04725X), 01 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 25 Jun 2006

R Datta (MR-04726A), 01 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Jun 2006

BK Lakhtakia (MR-04730H), 01 Oct 2006

N Lamba (MR-04731L), 01 Oct 2006

SM Sudumbrekhar (MR-04732N), 01 Oct 2006

AA Garg (MR-04736K), 01 Oct 2006

S Katoch (MR-04739X), 31 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Oct 2006

N Naithani (MR-04745L), 02 Nov 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Oct 06

RS Sarkar (MR-04747W), 30 Oct 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Oct 2006

SD Mulgund (MR-04756X), 24 Nov 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2006

Army Medical Corps (Non Tech)

To be Lt Col

Name, Rank, Personal No, Date of Promotion

Abdul Gafur Khan Lt Col (TS), NTR-16482K, 16 Dec 2004

Kuldev Lt Col (TS), NTR-16439H, 16 Dec 2004

S Pillai G Lt Col (TS), NTR-16538L, 16 Dec 2004

D C Joshi Lt Col (TS), NTR-16466M, 16 Dec 2004

Gurcharan Singh Lt Col (TS), NTR-16489N, 16 Dec 2004

Kulbushan Singh Lt Col (TS), NTR-16491L, 16 Dec 2004

KS Shekhawat Lt Col (TS), NTR-16493W, 16 Dec 2004

Ramaswamy Vellingiri Lt Col (TS), NTR-16588W, 16 Dec 2004

Trilochan Dash Lt Col (TS), NTR-16544Y, 16 Dec 2004

Bhajan Singh Lt Col (TS), NTR-16610W, 16 Dec 2004

MT Raju Lt Col (TS), NTR-16540H, 16 Dec 2004

Madan Lal Lt Col (TS), NTR-16545F, 16 Dec 2004

Ram Kumar Lt Col (TS), NTR-16682A, 16 Dec 2004

Sukhdev Singh More Lt Col (TS), NTR-16547M, 16 Dec 2004

Dharam Pal Ola Lt Col (TS), NTR-16546K, 16 Dec 2004

RDS Burania Lt Col (TS), NTR-16611Y, 16 Dec 2004

Ravi Negi Lt Col (TS), NTR-16563K, 16 Dec 2004

Suresh Chander Kaushal Major, NTR-16541L, 16 Dec 2004

Dinesh Chandra Singh Negi Major, NTR-16561Y, 16 Dec 2004

J L Sharma Major, NTR-16562F, 16 Dec 2004

PS Manhas Major, NTR-16619L, 16 Dec 2004

MK Bal Major, NTR-16582P, 16 Dec 2004

Kamal Singh Major, NTR-16602X, 16 Dec 2004

B Bihari Major, NTR-16511N, 16 Dec 2004

Raghvendra Mishra Major, NTR-16633X, 24 Jul 2005

To be Major

Name, Rank, Personal No. & Date of Promotion

Gukashankar Capt, NTR-16681X, 11 Apr 2006

To be Capt

Name, Rank, Personal No. & Date of Promotion

Gukashankar Lt, NTR-16681X, 16 Dec 2004

The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC/SSC officers with effect from the date mentioned against them :—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS

To be Capt

Lt Sumit Kumar Agrawal (MS-14922N), 27 Dec 2005

Lt Vinod Kumar Sahu (MS-14930M), 27 Dec 2005

Lt Indra Prakash Dubey (MS-14935L), 27 Dec 2005

Lt Puneet Dewan (MS-14943K), 27 Dec 2005

Lt Neha Goyal (MS-14944M), 27 Dec 2005

Lt Ankur Sharma (MS-14945P), 27 Dec 2005

Lt Jagriti Verma (MS-14946X), 27 Dec 2005

Lt Kamalpreet Singh (MS-14947A), 27 Dec 2005

Lt Pramod Solanki (MS-14942F), 30 Dec 2005

Lt Venus Deshwal (MS-14731Y), 30 Dec 2005

Lt Ajay Singh Thakur (MS-14739L), 30 Dec 2005

Lt Deepti Dhillon (MS-14733K), 31 Dec 2005

Lt Varakuti Mallika (MS-14915X), 27 Dec 2005

Lt Mohammad Anas Mazhar Aziz (MS-14917H), 27 Dec 2005

Lt Meenu Dangi (MS-14920H), 27 Dec 2005



Lt Khusbu (MS-14926K), 27 Dec 2005  
 Lt Shailesh Mogra (MS-14932X), 27 Dec 2005  
 Lt Arvind Semalti (MS-14937W), 27 Dec 2005  
 Lt Kavita Kumari (MS-14719X), 11 Jun 2005  
 Lt Bhavesh Talera (MS-14914P), 27 Dec 2005  
 Lt Raminderpal Singh Cheema (MS-14921L), 27 Dec 2005  
 Lt Imran Mehdi (MS-14923W), 27 Dec 2005  
 Lt Avnish Kumar (MS-14924Y), 27 Dec 2005  
 Lt Gurveen Waraich (MS-14929X), 27 Dec 2005  
 Lt Akhilesh Kumar Mishra (MS-14933A), 27 Dec 2005  
 Lt Zafar Israil (MS-14934H), 27 Dec 2005  
 Lt Vijay Kumar Pawar (MS-14940W), 27 Dec 2005  
 Lt Abhishek Rathore (MS-14941Y), 27 Dec 2005

## PERMANENT COMMISSION

## To be Capt

Capt Rohit Vikas (MR-08133L), 27 Dec 2005  
 Capt Barnali Biswas (MR-08134N), 27 Dec 2005  
 Capt Shabnam Bhalla (MR-08137F), 27 Dec 2005  
 Capt Prashant Kumar (MR-08144X), 27 Dec 2005  
 Capt Manish Bhartiya (MR-08145A), 27 Dec 2005  
 Capt Kumar Rajesh Ranjan (MR-08162A), 27 Dec 2005  
 Capt Sankaranand P (MR-08171F), 27 Dec 2005  
 Capt Amit Pathania (MR-08177H), 27 Dec 2005  
 Capt Abhishek Gupta (MR-08181L), 27 Dec 2005

## Sqn Ldr to be Wg Cdr

SK Nath (MR-06558L) (AF-22501), AMC, 07 Jun 2005  
 V Vasdev (MR-06556A), (AF-22499), AMC, 07 Jun 2005  
 Medha Ramesh Kulkarni (MR-07929P), (AF-23481), AMC, 30 Sep 2005  
 Debajit Talukdar (MR-06813M), (AF-23420), AMC, 10 Oct 2005  
 Kishore Kumar (MR-06615F), (AF-22512), AMC, 20 Dec 2005  
 P Jaiswal (MR-06672H), (AF-23147), AMC, 06 June 2006  
 RD Bavdekar (MR-06555X), (AF-22498), AMC, 07 June 2005  
 KMA Raybagkar (MR-07374Y), (AF-27644G), AMC, 14 Sep 2006  
 Manas Saha (MR-07660A), (AF-23457L), AMC, 21 Sep 2006

A Mukherjee (MR-06842F), (AF-23464), AMC, 30 Oct 2006

Parthasarathy Ghana (MR-07379X), (AF-23452), AMC, 14 Sep 2006

HM Keshvamurthy (MR-07451H), (AF-23460), AMC, 28 Sep 2006

P Chatterjee (MR-06739W), (AF-23413), AMC, 04 Jan 2007

V Singh (MR-06742W), (AF-23415), AMC, 04 Jan 2007

## To be Flt Lt

Flt Lt Manish Gupta (MR-08157P), (AF-27676K), 27 Dec 2005

Surjeet Kumar Dwivedi (MR-08050A), (AF-27646), 30 Dec 2004

RAJESH KAMRAN,  
 Brig  
 Dy. DGAFMS (Pers)

No. 232, dated 16th April 2007.—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## Maj to Lt Col

IC No.	Name and Arm
55201	Vinay Kumar Jain, Sigs
55202	Prem Kumar, Engrs
55203	Satyanshu Verma, Sigs
—21 Oct 2005—	
52345	Rahul Dev Sharma, AC
52346	Vivek Singh Thakur, Inf
52347	Brijendra Singh Soni, Engrs
52350	Jitendra Singh, Engrs
52351	Brijendra Singh Bhadauria, AC
52352	Dhananjay Joshi, Inf
52354	Ravindar Singh, AOC
52355	Ashish Khurana, AAD
52356	Vishal Pathania, Engrs
52357	Dipankar Singh, Inf
52358	Salil Pande, Engrs
52359	Sanjay Gangwar, ASC
52360	Saurav Schimar, AAD
52361	Aankur Bhatia, EME

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
52362	Jagdip Singh Sawhney, Engrs	52404	Manish Kumar, Arty
52363	Satpal Singh, ASC	52405	Prince Datta, AOC
52364	Ketan Prasad, AC	52407	Ujwal G Kammar, Sigs
52365	Bikram Jit Singh, ASC	52408	Virndra Singh Malhotra, AAD
52366	Sanjay Gautam, Mech Inf	52410	A Raman, Sigs
52367	Eben Jerry Simeon, EME	52411	Vikramjit Singh Panag, Mech/Inf
52368	Kt Varunny, Inf	52413	Sukhjeet Sandhu, Inf
52369	Nitin Koak, Int	52414	Sandeep Sinha, ASC
52370	Rajeev Nagyal, Inf	52417	Vijay Mahadevan, Inf
52371	Vikram Jeet Varaich, Sigs	52418	Ram Prakash Pandey, Int
52372	Mohinder Singh Rana, ASC	52419	Vikas Sehgal, Sigs
52373	Nil Anjan Biswas, Sigs	52420	Ajay Kumar Sharma, Inf
52374	Kulbhushan Jolly, Engrs	52421	Nangare Parag Keshavrao, Inf
52375	Sanjeev Dhar, Inf	52422	Vishwajeet Kumar, EME
52376	Rohit Mehrotra, AC	52424	Karnail Singh, Arty
52378	Naresh Bhardwaj, Inf	52426	Gaurav Singh Karki, Engrs
52379	Harjot Singh Gill, EME	52427	Sunil Abraham, Sigs
52380	Vikas Kumar, M/Inf	52428	Yashpal Tora, AOC
52381	Warke Rajesh Laxman, Arty	52429	Rajesh Kumar, Arty
52382	Prabhu Narayan Yadav, EME	52430	Shiv Prakash, ASC
52383	Ranvijay Singh, AC	52431	Nitin Rathore, Inf
52384	Radhika Raman Tiwari, ASC	52432	Jitendra Kumar, Mech/Inf
52385	Gagan Deep Singh Rupaal, EME	52433	T Lalit Mohan, Engrs
52386	Navdeep Singh, Inf	52434	Birender Singh Yadav, AC
52387	Vishal Sharma, AOC	52435	Ravi Yadav, Inf
52388	Jagbir Singh Kataria, ASC	52436	Dinesh Chandra Singh Kanyal, Inf
52390	Vijay Kumar Kapoor, EME	52437	Deepak Joshi, Inf
52391	Avtar Singh Sekhon, Int	52439	Sandeep Menon, Army AVN
52392	Yogesh C Patwardhan, AAD	52440	Neeraj Trivedi, Sigs
52393	Inderjeet Singh Patyal, Inf	52441	Ajeet Pal Singh, Sigs
52394	Ravi Bhushan, Inf	52442	G Raghu Ram, Sigs
52395	Abhijit Mitra, Inf	52443	Abrar Ahmed, Inf
52396	Abhishek Agnihotri, Arty	52445	Satyasheel Baber, Inf
52397	C Veluchamy, Engrs	52446	Vishal Sharma, EME
52399	Ritesh Pal, EME	52447	Manoj Kant Upreti, Arty
52400	Vimal Kumar Sharma, EME	52448	Kulvir Singh, Inf
52401	Jitendra Sharma, Inf	52449	Ajesh Verma, Engrs
		52450	Rakesh Kumar, M/Inf
		52451	Rehan Durrani, Arty
		52453	Rohit Bakshi, AC
		52454	Manish Sinha, Inf

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
52455	Narpal Singh, EME	52495	Kunwar Ashwani Vasishtha, AC
52456	Rohit Sharma, EME	52496	Navneet Mehta, ASC
52457	Neel Vivek Monis, Army AVN	52499	Manoj Kumar Bajaj, AOC
52458	Naveen Chhabra, Arty	52500	Gurmeet Singh Pannu, AOC
52459	Surinder Hora, Inf	52501	Babu Jaishankar Chandra Nath, Inf
52460	Ravi Shankar Rai, Sigs	52502	Dinesh Chandra, ASC
52461	Sanjay Chauhan, AAD	52503	Shaman Chodha, Arty
52462	Gopal Singh Guleria, AOC	52505	Usman Aamir, EME
52463	Naresh Kumar Mishra, Inf	52506	Oka Bhushan Upendra, Inf
52464	Umed Singh, Inf	52507	Jayan K Varghese, Engrs
52465	Murali Krishna Jrv, Sigs	52508	Pankaj Vinayak, Inf
52466	Kush Jolly, Sigs	52509	Sandeep Sharma, ASC
52467	Rajeev Kapur, Inf	52512	Anil Kumar S, Inf
52468	Dipanshu Sinha, Inf	52513	Vikram Singh Pathania, Inf
52469	Devendra Singh, ASC	52514	Sanjay Samwal, Engrs
52470	Rajat Dutta, AOC	52515	Muchini Ajay, EME
52471	Sanjay Chandra Kandpal, Inf	52516	Nitin Vasant Punde, Arty
52472	Vijay Kumar Rangnath Jagtap, Inf	52518	Ashish Nautiyal, EME
52473	V Nagendra Rao, Engrs	52520	Ram Rasik Sharan, Inf
52474	Himanshu Bhatnagar, Sigs	52521	Sanjeevi Ramesh Kumar, Arty
52475	Manceesh Joshi, Inf	52522	Abhishek Chaturvedi, Inf
52476	Animesh Jayaswal, Inf	52523	Jitendr Singh, Arty
52477	Ajay Varma, Engrs	52525	Ranjeev K Babu, Inf
52478	Mukesh Agrawal, EME	52526	Rakesh Chand Katoch, Inf
52479	Sandeep Rana, ASC	52527	Bhanwar Singh Rathore, Mech/Inf
52481	Dhanna Ram Chaudhary, AOC	52528	Gyanendra Pandey, AOC
52482	Balusu Srinivas, Inf	52530	Shalav Sanwal, Inf
52483	Kishan Mohan Agarwal, Engrs	52531	Pankaj Sawhney, Inf
52484	Gautam Guha, Inf	52532	Sidhartha Ghosh, EME
52485	Tilekar Sachin Raghunath, Int	52534	Raman Deep Singh Sandhu, Arty
52486	Ajit Singh, EME	52535	Ranjan Kumar Chowdhary, Sigs
52487	Ajay Aggarwal, EME	52536	Navdeep Singh, ASC
52488	Mukherjee Joydip Biksh Chandra, Inf	52537	Sunil Gupta, Sigs
52489	S Zaffaryap H Rizvi, Inf	52539	Govind Singh Deopa, Sigs
52490	Rahul Trivedi, Engrs	52540	Rakesh Mehra, Inf
52491	Randhawa Singh, Arty	52543	Amit Ashri, Arty
52492	Amit Dutta, Arty	52544	Vishal Chadda, ASC
52493	Randhir Singh, Arty	52545	Ananta Pal Singh Negi, Int
52494	Abinash Acharya, ASC		

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
52546	Kulbir Singh Hundai, EME	52591	Vinod Kumar Sharma, EME
52547	Rajvinder Singh, Engrs	52593	Paramveer Singh, Sigs
52548	Praveen Dhiman, Arty	52594	Jaideep Singh Pannu, ASC
52549	Vivek Malik, Arty	52595	Ravindra Chaswal, Arty
52550	Sanjeev Sharma, Arty	52596	Manish Asthana, Inf
52553	Minish Ramesh Kinkhikar, Engrs	52597	B Girish Kumar, Arty
52554	Syed Taqui Abbas Rizvi, ASC	52598	Vikram Singh, Inf
52555	D Srinivasan, Arty	52599	Rajeev Kukkal, Arty
52556	Abhinav Gurha, Inf	52601	Vijay Mishra, Sigs
52557	Anil Thakur, ASC	52602	Rahul Kumar, AOC
52558	N Hari, Sigs	52605	NVSS Subrahmanya Kumar, Sigs
52559	Nikhil Tewari, ASC	52606	Rajendra Kotkar, Sigs
52560	Mandeep Singh, Int	52607	Manish Vannu Vachher, ASC
52563	Rajneesh Bhatnagar, EME	52608	Puneet Suri, Engrs
52564	Sujay Kumar, EME	52612	Sivadasan M, Arty
52566	Jasvinder Singh, Sigs	52613	Davinder Singh, AC
52567	R Jaya Kumar, Inf	52614	Sameer Arora, AOC
52568	Dheeraj Singh, ASC	52615	Rajat Sharma, Arty
52569	Pratap Singh, Inf	52616	Vivek Ahlawat, EME
52570	Harbinder Singh Brar, Inf	52617	Madhusudanan G, Engrs
52572	Rajeev Singh, Inf	52618	Naveen Teotia, Arty
52573	Anoop Rawat, Arty	52620	Himmat Singh, AC
52575	Ram Madhuke Sharma, Inf	52621	Jeet Bahadur, Arty
52577	Khandelwal Kamlesh Bajrang Lal, Sigs	52624	Anil Kumar Yadav, Arty
52578	Anshuman Singh, Inf	52625	Jaideep, Arty
52579	Ravinder Pal Singh Paul, Inf	52626	Mahipal Singh Mahar, Inf
52580	Satnam Singh Bajwa, AOC	52627	Vijay Chahar, Inf
52581	Ravi Bhushan, Inf	52628	Manish Kumar, AOC
52582	Aman Deep Singh, AAD	52629	Ashutosh Malla, AOC
52583	Ashok Mor, ASC	52630	Leela Dhar Bobba, Inf
52584	Ajay Pal Kaushish, Inf	52631	Jayanta Kumar Jana, EME
52585	Vikram Jit Singh Parmar, AOC	52632	Deepak Gaur, Inf
52586	Samit Verma, AC	52634	Puneet Sharma, Inf
52587	Santosh Philip, ASC	52635	Dahitule Pramod Shahaji, Arty
52588	Anurag Bhardwaj, Arty	52636	Vikram Kashyap, ASC
52589	KS Jankiram, EME	52637	Anoop Natrajan, Inf
52590	Kajale Sagar Dattatraya, Inf	52638	Arvind Verma, AC
		52639	Sunil Godayal, ASC
		52640	Tushar Joshi, Inf
		52641	Vivek Sharma, EME
		52643	Ashish Badola, EME

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
52644	OM Prakash Singh, ASC	54253	Chandra Shekhar SM, Sigs
52646	Rajnish Sharma, Inf	54254	Rajib Chattopadhyay, Sigs
52648	Ajay Shukla, Inf	54255	Dinesh Kumar, Engrs
52649	Sanjeet Shankar Sahai, Inf	54256	Jagmohan Singh Ahluwalia, EME
52650	Somon Kumar Ghosh, Engrs	54258	Raghuvir Singh Bhoomla, EME
52651	Mijaar Prasad Jayant, Mech/Inf	54259	Putha Anil Kumar, EME
52652	Jashwant Sinha, Engrs	54260	Naveen Ahlawat, Engrs
52654	Vivek Goswami, Sigs	54261	Bhalinder Preet Singh, Engrs
52655	Ballaney Rajesh Nand Kumar, Engrs	54262	Vanit Passi, Sigs
52656	Neelesh Kumar Jha, ASC	54264	Vinit Saxena, Sigs
52657	Sushant Kumar Singh, Engrs	54267	Gautam Taneja, Engrs
52658	P Vishwas Jeevant, Engrs	54268	Pravir Mishra, Engrs
52659	K Ramakrishnan, Arty	54269	S Saravanan, Engrs
52662	Ramneik Goswami, EME	54270	Tanish Kumar, Engrs
52663	Alfred Antony, EME	54272	Ajay Basnet, EME
52664	Anil Amar, ASC	54273	Das Tapas Kumar Biswanath, EME
52665	Sujit Kumar Mondal, Arty	54274	Ram Chandra, Sigs
52666	Hemant Singh, AAD	54275	Anupam Kumar Singh, EME
52667	Vinod Kumar, Engrs	54276	Kalindini SS Varma, Sigs
52668	Prashant Pachauri, Arty	54277	Inder Mohan Singh, Engrs
52669	Devender Singh Sohal, EME	54279	Alok Jain, EME
52670	Shubhendu Ghosh, Inf	54280	Manoj Kumar VK, EME
52671	Naresh Chaudhary, M/Inf	54282	Shilpi Shukla, EME
52672	Avinash Chander, AOC	54283	Rajesh Gopal, Sigs
52673	Vikrant Singh, Sigs	54284	Sunil Kumar V, EME
52674	Partha Sarathi Mohapatra, Sigs	—12 December 2006—	
52675	Anurag Nautiyal, Arty	Capt to be Maj	
52676	V Vinod, Engrs	IC No.	Name and Arm
52677	C Chandra Shekhar, Arty	60085	Vikram Singh Rai, AC
52678	Jagat Byapi Swain, AOC	60087	Piyush Kumar Jain, Engrs
—11 December 2006—		60088	Amit Sethi, AAD
54242	Sakhre Anirudha, Sigs	60089	Deepak, EME
54245	Rajinder Kumar, Engrs	60090	Sandeep Kalra
54246	Vikrant Pandey, EME	60091	Peyush Shukla, Inf
54247	Gurpreet Singh Bedi, EME	60092	Dharmendra Yadav, Inf
54249	Gopa Kumar N, EME	60093	Khwaja Sultan Ahmed Khan, Inf
54250	CS Thiruvengataswamy, Engrs	60095	Ratnesh, Inf
54251	Sathye Chandrashekhar Shamsunder, EME	60096	Vivek Kanwar, Inf
54252	Pingili Himavanth Reddy, Engrs	60097	Amit Bakshi, Mech/Inf

IC No.	Name and Arm
60098	Vaibhav Rana, Arty
60099	Kamaldeep Singh Sandhu, Inf
60100	Neil Katoch, Inf
60101	Amit Mahendra Sharma, EME
60102	Piyush Bisht, Arty
60103	Kuldeep Singh, AC
60104	Bibhuti Kumar Jha, Sigs
60106	GV Anshu, Arty
60107	Nayanjyoti Bura Gohain, Inf
60108	Pankaj Joshi, Arty
60110	Samrat Singh, Engrs
60111	Surender Singh, Arty
60112	Dinesh Tewari, Sigs
60113	Vijay Anand Rao Shinde, Int
60114	Mridul Verma, Inf
60115	K Kiran, Inf
60116	Romil Chandra, EME
60117	Neeraj Sharma, AAD
60118	Pankaj Ashok Dhoran, AOC
60119	Amit Dhand, Engrs
60120	Naresh Chauhan, Arty
60121	Vikrant S Shinde, Inf
60122	Samar Singh Chauhan, AC
60123	Abhishek Yadav, AOC
60124	Gaurav Dalal, EME
60125	Arun Varughese, Inf
60126	Sudhanshu Dwivedi, Inf
60128	Lalit Kumar Jain
60129	Virender Kumar Thakur, Inf
60130	Abhishek Singh, Inf
60131	Vikram Singh, Sigs
60132	Ananda Chandra Boity, EME
60133	Akash Karwal, Inf
60134	Sudipto Chaki, Arty
60135	Sunil Kumar, Engrs
60136	Abhinav Thakur, EME
60137	Soochak Y Kumar, ASC
60138	Shailendra Pratap Singh, Sigs
60139	Manoj Kumar Rana, Int

IC No.	Name and Arm
60140	Girish Kumar Gandhi, Engrs
60141	Mukund MC, Inf
60142	Arjun Dube, AC
60143	KM Nithin Kuttappa, Inf
60144	Rajeev Chauhan, Arty
60145	Gaurav Kumar Pande, ASC
60146	Harish Joshi, Inf
60147	Maneesh Ahluwalia, Arty
60148	Punar Preet Singh Mann, Mech Inf
60149	Vivek Bahuguna, ASC
60151	Gurinder Singh Klair, AC
60152	Kunal Sinha, Inf
60153	Narain Dass, Inf
60154	Garuv Sarvaprya Juneja, Arty
60155	Kapil Chandrakant Jodh, Arty
60156	Ajit Kumar Reddy, EME
60157	Sanjay Joshi, Engrs
60158	Puneet Chauhan, Engrs
60159	Ankur Sorick, Inf
60160	Praveen Kumar, Inf
60161	Amandeep Singh, ASC
60162	Saif Naseem, Arty
60163	Gaurav Mehra, Mech Inf
60165	Waibhav Anil Kale, Inf
60166	Gaurav Kumar Mahindra, AC
60167	Pawan Chaswal, Inf
60168	Rajesh Dwivedi, Engrs
60169	Saurabh Rathee, Inf
60170	Amninder Singh Bains, Inf
60171	Salam Satyajit Singh, Arty
60172	Ram Murty, AAD
60173	Rajat Kumar Tripathy, Inf
60174	Sambit Kumar Nayak, Sigs
60175	Akshay Pande, Sigs
60176	N Nikhil, EME
60177	Aswini Kumar Sharma, Engrs
60178	Ravi Zachariah, AAD
60179	Rajendra J Rane, Inf
60180	Sagat Singh Rathore, EME

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
60181	Vishwajeet Singh, Inf	60223	Vishwas Pradeep Paranjpe, Inf
60183	Vishal Sharad Chinchkar, Inf	60225	Naresh Banyana, ASC
60184	Kishalaya Dubey, Inf	60226	Aman Luthra, Inf
60185	Sushil Minhas, Inf	60227	Vidhya Bhushan Tewari, EME
60187	Anshuman Handa, Arty	60228	Rahul Gaur, AOC
60188	KJ Saju, AAD	60229	Abhimanyu Shekhawat, AC
60189	Bobby Jasrotia, Inf	60230	Pawan Kumar, Sigs
60190	CR Dheeraj, Arty	60231	Rajeev Kaushik, Inf
60191	Indrajit Singh, Inf	60232	Manmohan Thakur, Arty
60192	Punit Srivastava, ASC	60233	Sharang Pun, Inf
60193	Rajeev Kumar Nair, Arty	60234	Ripjeet Singh Rai, Inf
60194	CS Jayaram, Sigs	60235	Akshay Bahl, Inf
60195	Sunu John, ASC	60236	Suresh Gurav, Engrs
60196	Suneel Kumar, Arty	60237	Vishal Ashok Rao Aher, Inf
60197	L Sonamani Meetei, Sigs	60238	Shailender Singh Katoch, AAD
60198	Sourabh Inamdar, Engrs	60239	Avishek Mukherjee, Inf
60199	Vasant Gurav, Inf	60240	Anirudh Bhushan Agarwal, Engrs
60200	Nalin Durgapal, Inf	60241	Shalu Raja, EME
60201	Davender Singh, Inf	60242	Raakesh Vasanth Thayyil, Sigs
60203	Ujjwal Khatiwada, AOC	60243	Kuldip Singh, AOC
60204	Narender Singh, Inf	60244	Vivek Rehni, ASC
60205	Padmaticona Govardhan Reddy, Engrs	60245	Vikas Gautam, Sigs
60206	Saurabh Kapoor, Engrs	60246	Jitesh R Dixit, Inf
60207	Amit Chaudhary, AOC	60247	Sameer Balwantrao Gujar, Inf
60208	Mridul M Nair, EME	60248	Manoj Kumar Upadhyay, Inf
60209	Narendra Tripathi, EME	60249	Anup Agrawal, Inf
60210	Jitender Singh Bhalla, EME	60250	Harpreet Sandhu, Inf
60211	Akshay Kanwar, Inf	60251	Tanmay Pathak, Inf
60212	Nikhil Eshwar, Inf	60252	V Girish, AOC
60213	Hari Prasad, Inf	60253	Kamal Nauriyal, Inf
60214	Pramod Kumar Gahlot, Inf	60254	Saurabh Chaudhary, Engrs
60215	Arun Menon, Arty	60255	Rajender Singh, Inf
60216	Prabhat Bist, EME	60257	Rajeshwar Singh, AAD
60217	Jagbir Singh Dalal, AAD	60258	Pankaj Prakash Pandey, ASC
60218	Samir Srivastava, Mech Inf	60259	Saket Suman, Inf
60219	Pramod Kumar, Engrs	60260	Sushant Govil, Inf
60220	Yogendra Kushwaha, Arty	60261	Patil Rohit Ramesh, Inf
60221	Shamit Thakur, Engrs	60262	Chinna Dasari Srinivas, Arty
60222	Manish Kumar, Inf	60263	Anurag Singh, Arty

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
60264	Mandar Madhav Bhalariao, Sigs	60309	Suresh Kumar, Sigs
60265	Kumar Gaurav, Engrs	60310	Rajiv Kumar Singh, EME
60266	Gurinder Singh, Int	60311	Samridh Chhibber, ASC
60268	Nigel Charles D Costa, Arty	60313	Ravindra Rananavare, Inf
60269	Puneet Sharma, Engrs	60314	Krishan Kant Giri, Arty
60270	Chalamala Setti Linesh Kumar, Arty	60315	Chetan Kumar, Engrs
60271	Pankaj Kumar Singh Kushwaha, EME	60316	Bhavneet Singh, Arty
60272	Ajay Rawat, AOC	60317	Abhinav Batra, EME
60274	Sandeep Kumar, ASC	60318	Amit Nath, AOC
60275	Aninda Mandal, AC	60320	Vinay Sharma, Engrs
60276	Ram Rattan, EME	60321	Ashish Misra, Inf
60277	Surendra Singh, Sigs	60322	Ajay Negi, ASC
60278	Rup Kumar Singh, EME	60323	Avneesh Singh, Inf
60279	Neeraj Kumar, Arty	60326	H Gopala Krishnan, Sigs
60280	Nikhil Pandey, AAD	60327	Rajesh Vilas Hankare, Inf
60281	Nitin Kumar, Engrs	60328	Digamber Singh, Inf
60282	Arijit Naryan Mukhopadhyay, Inf	60329	Tarun Dua, Arty
60283	Amit Dogra, Inf	60330	Mahesh Taneja, Inf
60284	Rajeshwar Jamwal, Inf	60331	KM Santhosh, EME
60285	Amrut Kulkarni, Sigs	60332	Vinod Singh, Inf
60287	Rajdeep Singh Jamwal, ASC	60334	Cyril Anthony Satur, AC
60288	Vikas Kumar, Sigs	60335	Kunwar Anuraag Singh, Arty
60289	Paresh Bhaskar Deshpande, Inf	60336	Satvinder Singh Sidhu, Engrs
60290	Rajnish Singh Parmar, Engrs	60337	Nitin Sharma, Arty
60292	Ashutosh Srivastava, Arty	60338	Jaswinder Singh, Sigs
60293	Sarang Manohar Chavan, Inf	60339	Ashish Prakash Kandwal, Inf
60294	Nishkam Puri, Engrs	60340	Tribhuwan Narain Singh, Inf
60295	Rochak Bakshi, Arty	60341	Pawan Anil Joshi, AOC
60296	Kanishk Singh, AC	60342	Gurcharan Singh, Arty
60298	Santosh Kumar Tripathi, Inf	60343	Sanjay Sandye, AAD
60300	Arvind Kumar Thakur, AOC	60344	Rajkumar Vijay Kumar Vishwanathe, ASC
60301	Sudhir Singh Bisht, Inf	60345	Ajeet Baswan, Mech Inf
60302	Manu Sooden, Inf	60346	Ratnakar Gouda, Engrs
60303	Rahul Shukla, EME	60348	Beerendra Singh Waldiya, Arty
60304	Shelley K Das, AAD	60349	Sandeep Singh Walia, Arty
60305	Rajender Pal Singh Sandhu, ASC	60350	Abhishek Mall, Inf
60306	Ramneek Singh Bhabra, Inf	60351	Jaswinder Singh Gill, Inf
60307	Abhay Acharya, Mech Inf	60353	Satpal Singh Negi, Inf
60308	Amey Ashok Kale, EME	60354	Ashu Suri, Inf



IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
60355	Sanjeev Kumar, AOC	60395	Rahul Sharma, ASC
60356	Shikharesh Vatsa, EME	60396	Ravindra Pratap Singh, EME
60357	Nimbalkar Parag Sambhaji, Arty	60397	Sunil Kumar, Inf
60359	Dushyant Kumar, Arty	60398	Vinod Atri, AC
60360	Kuldeep Singh Shekhawat, Inf	60399	Sandeep Singh Thakur, EME
60361	Vikas Verma, AAD	60400	Jasraj Singh, Arty
60362	Rajendra Prasad, Sigs	60401	Gaurav Narang, Engrs
60363	Kamal Bachani, Arty	60402	Sanjeev Kumar Thakur, ASC
60364	Pradeep Kumar, Arty	60403	Vijay Kishore Jha, Sigs
60365	Parag Doval, Engrs	60404	Narendra Prasad Semalti, Inf
60366	Dhiraj Suhas Joshi, EME	60405	Amandeep Singh, Inf
60367	Ajit Singh, ASC	60406	Vishal Mudre, Inf
60368	Harpreet Singh, Inf	60407	Sandesh Kumar, AAD
60369	Himanshu Panwar, Inf	60408	Amit Jakhar, EME
60370	Amit Rana, AC	60409	Ranjeet Duggal, AOC
60371	Abhishek Kumar Verma, Sigs	60410	Mandar Ulhas Bhandekar, Arty
60372	Bhate Amol Arvindrao, AAD	60411	Shashank Parmar, Inf
60373	Anil Venkataramani, EME	60412	Rajnish Mehta, EME
60374	Jitesh Arora, Engrs	60413	Anmol Taneja, AAD
60375	Sanjog Singh Thapa, Engrs	60414	Dhiraj Khanna, Arty
60376	T Joy Kumar, Sigs	60415	Dharmesh Dalal, Inf
60377	Anirudh Shekhawat, Sigs	60416	Arjun Andotra, AOC
60378	Abhijit Singh, Arty	60417	Aman Vashisht, Engrs
60379	Ranyodh Singh, Inf	60418	Sunil Kumar Singh, Engrs
60380	MK Sushant, AC	60419	Parmod Singh Chauhan, Inf
60381	Aveek Konar, Inf	60420	Sapnesh Kishor Sahu, Sigs
60382	Laitonjam Rockson, Inf	60421	Amit Mohan, ASC
60383	Deepak Singhal, Inf	60422	Lejy Jacob John, Inf
60384	Amit Beniwal, ASC	60424	Pratap Sandhi Bigraha, Arty
60385	Pankaj Kumar Sinha, Inf	60425	Stephen Dcosta, Arty
60386	Manish Singh, Inf	60426	Avinash D Hemmady, Inf
60387	Ashish S Borgaonkar, Arty	60427	Prasenjit Kar, Inf
60388	Ashutosh Sahai, ASC	60428	Upendra Kumar Srivastava, Arty
60389	Vipul Menon, Inf	60429	Pratheesh G, EME
60390	Lalit Mohan Mishra, Inf	60430	Kulkarni Abhijit Mukund, Sigs
60391	Rishi Mohan, Inf	60431	Shaik Mastan Vali, ASC
60392	Bharat Pratap Singh Tomar, Engrs	60432	Sandeep Singh Chauhan, Arty
60393	Akash Sharma, Engrs	60433	Anurag Bahl, Inf
60394	Mahendra Singh Rawat, Inf	60434	Vijay Kumar Chaubey, Arty

IC No.	Name and Arm	IC No.	Name and Arm
60435	Akhilesh Thapa, Inf	60478	Kanchan Kumar, EME
60436	Sandeep Kumar Singh, AC	60480	Devender Tehlan, Inf
60437	Vikas Bhomia, Engrs	60481	Vineet Chopra, Mech Inf
60438	Rishi Pal Singh, Sigs	60482	Amit Kumar, Inf
60439	Chirag Singh Barak, Mech Inf	60484	Syed Tabrez Shamshad, Engrs
60440	Dheeraj Arora, Inf	60485	Manish Kumar Singh, Sigs
60441	Partha Pratim Dubey, Int	60486	Ratnadeep Khan, Arty
60442	Vinod Kumar Sheoran, Inf	60487	Umang Kohli, AC
60444	K Chandra Mohan Reddy, Sigs	60488	Arun Kumar Sahu, ASC
60446	Navinder Singh Mann, Inf	60489	Nripendra Singh Parmar, Inf
60447	Binish CT, EME	60490	Akhilesh Mohan Tiwari, EME
60448	Nirmalendu Pande, Inf	60491	Pankaj Sharma, AOC
60449	Alok Singh, EME	60492	Sukhdev Singh Nagiyal, AAD
60450	Piyush Sood, Inf	60493	Tuhin Chaudhary, AC
60451	Abishek Tomar, Arty	60494	Mohd Shabbir Jariwala, AC
60452	Kanwar Deep Singh Bajwa, Inf	60495	Suddharth R Hiremath, Engrs
60453	Harish Ramchandran, Inf	60496	Sidhartha Mukherjee, AAD
60454	Salil Puri, Sigs	60497	Somnath Chakraborty, AOC
60455	Kesari Singh Rathore, AAD	60500	V Mahesh, AC
60456	Sachin Pandey, Engrs	60501	Bhaskar Kataria, Inf
60457	Rahul Banerjee, Engrs	61189	Rajesh Benda, AEC
60458	Wagle Vishal Raghunandan, EME	61206	Rajiv Guleria, AEC
60459	Ashok Kumar Sharma, Arty	61213	Sahdev Singh Raizada, AEC
60460	Nitin Mishra, Engrs	61216	Deepak Singh, AEC
60461	Manat Hussain, Inf	61222	Abhishek Jha, AEC
60462	Avinash Bhalchandra Padiyar, Arty	—09 Dec 2006—	
60463	Abhishek Bachchan, AOC		
60464	Sachin Kumar, EME	62929	Sukhjeet Singh, Sigs
60466	Lekh Raj, Mech Inf	62930	Manish Singh, Sigs
60467	Himmat Singh Dhillon, Inf	62931	Gurinder Pal Singh Sandhu, EME
60469	Hanamant Patil, Int	62932	Manoj Kumar Ghosh, Engrs
60470	Rajneesh Tyagi, Inf	62933	Parvinder Singh Saini, Engrs
60471	Arnab Kumar Deb, AOC	62934	Prahlad Oinam, EME
60472	Soumasish Goswami, Inf	62936	Mandar Chandrashekar Kodnikar, Engrs
60473	Sachin Saxena, Sigs	62938	Sanjay Kumar, Engrs
60474	Shailendra Rawat, Arty	62939	Gaurav Mishra, EME
60475	Ranjeev Kumar Sharma, Arty	62940	Ranjan Negi, Engrs
60476	Sunil Kumar Singh, Arty	62941	Bhagwat Mukund Keshav, Sigs
60477	Virinder Sidhu, Inf	62943	V Raju, Engrs
		62944	Rohit Ramachandra Patted, Engrs

IC No.	Name and Arm
62945	Mohit Bisht, Engrs
62948	Ashish Goyal, Engrs
62949	Anshu, EME
62950	Kulbhushan Sharma, Sigs
62951	Yaameer Tewari, Engrs
62952	Mukesh Srivastava, Sigs
62953	Nitin Kumar, Engrs
62955	Ian Domnic Alexander, EME
62956	Patil Mandar Raosaheb, EME

—10 Dec 2006.

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir.

MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 233, dated 17th April 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef 10 Jan 2006 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Flt Lt to be Sqn Ldr

Jitesh Goel (MS-14310W), (MR-08315Y), (AF-26505L), AMC, 21 Jan 2006.

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 18 Jul 2005 and to grant them permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Flt Lt to be Sqn Ldr

Rakesh CR (MS-14382A), (MR-08241P), (AF-26502A), AMC, 21 Jan 2006.

To be Flt Lt

Flt Lt Rakesh CR (MS-14382A), (MR-08241P), (AF-26502A), AMC, 21 Jan 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 10 Jan 2006 and to grant him permanent

commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Flt Lt

Flt Lt Jitesh Goel (MS-14310W), (MR-08315Y), (AF-26505L), AMC, 21 Jan 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAFMS (Pers)

## ARMY BRANCH

## CORRIGENDUM

No. 234, dated 17th April 2007.—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Major

The Date of Promotion in Respect of MS-13876X Major Ira Bhagat at Serial No. 05 of the Gazette Notification published on 13 Dec 2003 is amended as follows:—

For — With effect from 18 Jan 2003

Read — With effect from 18 Jul 2002

The President is pleased to make the following amendment in the gazette notification on promotion to the rank of Wg Cdr in respect of undermentioned AMC/PC officers published on the dates noted against their names:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Sqn Ldr to be Wq Cdr

Rank, Name and MR No., and Dt. of gazette and Date of promotion For /Read

Wg Cdr. S Datta (MR-06405F) (AF-20948), 14 Jan 2006, 12 May 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. Manoj Kumar (MR-06431H) (AF-21990), 14 Jan 2006, 13 May 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. G Keshavamurthy (MR-06410M) (AF-20949), 14 Jan 2006, 22 Jun 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. JS Wagle (MR-07318A) (AF-20956), 14 Jan 2006, 13 July 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. HS Trehan (MR-06316H) (AF-21496), 14 Jan 2006, 24 July 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. Jyoti Maria (MR-07152K) (AF-23066), 25 Mar 2006, 15 July 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. Anirudh Agrawal (MR-06326M) (AF-21497), 25 Mar 2006, 24 July 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. A Saxena (MR-06327P) (AF-21498), 14 Jan 2006, 24 July 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. Muthuvel. S (MR-06602K), (AF-20962), 25 Mar 2006, 08 Aug 2005, 16 Dec 2004

Wg Cdr. Bhaswar Kumar Paul (MR-07443) (AF-23154), 13 Jan 2007, 08 Feb 2005, 16 Dec 2004

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy DGAFMS (Pers)